

अंतर्राष्ट्रीय

सीरिया एवं क्षेत्रीय सहायता सम्मेलन-2016 लंदन में आयोजित

- सीरिया एवं क्षेत्रीय सहायता सम्मेलन-2016 का 4 फरवरी 2016 को लंदन में आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सीरिया में पिछले पांच वर्ष से चल रहे गृह युद्ध को शांत करने के उपायों एवं क्षेत्र में बनी अस्थिरता को समाप्त करना था।
- इसमें जर्मनी, कुवैत, नॉर्वे, इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 60 देशों ने भाग लिया।
- इसके अतिरिक्त सीरिया प्रतिक्रिया योजना और क्षेत्रीय शरणार्थी योजना 2016-17 के लिए 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दिए जाने की घोषणा की गयी जिसे 2016 से 2020 के बीच इन क्षेत्रों में खर्च किया जायेगा।

अरबपतियों की राजधानी बना बीजिंग

"अरबपतियों की राजधानी" के नाम से मशहूर न्यूयॉर्क सिटी से उसका यह तमगा छिन गया है। चीन की पत्रिका हुरुन की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब बीजिंग अमीरों की नई राजधानी बन गई है। पिछले साल बीजिंग के अरबपतियों की सूची में 32 नए दौलतमंद शामिल हो गए। इस वजह से यह शहर दुनिया के अरबपतियों की राजधानी के रूप में उभरा है। इसके मुकाबले "बिग एप्पल" नाम से मशहूर

न्यूयॉर्क के अरबपतियों की सूची में केवल चार अमीर शामिल हुए हैं।

विश्वस्तर पर 'वी कैन्,आई कैन्' विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया

- विश्वस्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का विषय 'वी कैन्.आई कैन्' निर्धारित किया गया है।
- विश्व कैंसर दिवस कैंसर के खिलाफ लड़ाई में विश्व की जनसंख्या को एकत्रित करता है।
- विश्व कैंसर दिवस 2016-2018 लोगों से यह अपील करता है की वह कैसे सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से कैंसर जैसे वैश्विक भार को कम करने में सहयोग कर सकते हैं।

वियतनाम में दुनिया की सबसे लम्बी केबल कार

लांच

- वियतनाम के लाओ कार्ड राज्य में दुनिया की सबसे लम्बी रोप केबल कार का अनावरण किया गया। इसकी कुल लम्बाई 6292.5 मीटर है तथा इसे गिनिज बुक में शामिल किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस के

फैलने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपात

स्थिति की घोषणा की

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मच्छरों से पनपने वाले जीका वायरस के फैलने को

लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपात स्थिति की घोषणा की है। इस वायरस की वजह से अमरीका में असामान्य बच्चे जन्म ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी इस संस्था ने इस वायरस के फैलने के आंकलन के लिए, जिनेवा में कल विशेषज्ञों की आपात बैठक बुलाई। यह बैठक पिछले वर्ष ब्राज़ील में जीका वायरस के शुरू होने और असामान्य रूप से छोटे सिर वाले बच्चों के जन्म लेने की बढ़ती संख्या के बीच संबंध होने की आशंका के बाद बुलाई गयी थी। इस तरह की आपात स्थिति पिछली बार 2014 में पश्चिम अफ्रीका में इबोला फैलने पर घोषित की गयी थी, जिसमें ग्यारह हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे।

ऑस्ट्रेलिया में दौड़ेगी भारत में बनी मेट्रो

- केंद्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' मिशन का असर दिखाई देने लगा है। भारत के पोत परिवहन मंत्रालय के मुताबिक मेट्रो के 6 कोचों की पहली खेप को ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है। वडोदरा में तैयार किए गए इन कोचों को मुंबई बंदरगाह से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया।
- ऑस्ट्रेलिया भेजे गया हर कोच 15 फीट लंबा और 46 टन वजन का है। इन कोचों को लोड करने का काम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने किया है। भारत अगले ढाई वर्षों में कुल 450 कोच ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करेगा।

श्रीलंका ने तमिल राष्ट्रगान से हटाया अनौपचारिक प्रतिबंध

- तमिल राष्ट्रगान पर लगे अनौपचारिक प्रतिबंध को हटाते हुए श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश का राष्ट्रगान तमिल भाषा में गाया गया। यह कदम सजातीय अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के साथ मैत्री के प्रयास के तहत उठाया गया है।
- श्रीलंका को ब्रिटेन से मिली आजादी की 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्कूली छात्रों ने गाले फेस ग्रीन पार्क में आयोजित रंगारंग समारोह के दौरान सिंहला और तमिल भाषा में राष्ट्रगान गाया।
- इस कदम को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के साथ लगभग 26 साल तक चले युद्ध के बाद तमिल अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचने के सरकार के प्रयास के तहत देखा जा रहा है। लिट्टे के साथ चले इस युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई। गृह युद्ध के दौरान लगभग एक लाख लोग मारे गए थे।

आसियान नेताओं के साथ ओबामा की शिखर वार्ता शुरू

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) के नेताओं के साथ सोमवार को शिखर वार्ता शुरू की।

- अमेरिका आसियान में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश है। वह आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- इसीलिए उद्घाटन सत्र में जोर आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर रहा। एजेंडे के मुख्य बिंदुओं में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) समझौता भी शामिल है।

पहली बार चीन से वाया सिल्क रोड ईरान पहुंची

ट्रेन

प्राचीन समय के प्रमुख व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड से होते हुए चीन से पहली बार ट्रेन ईरान की राजधानी तेहरान पहुंची।

- इस मालगाड़ी में चीन उत्पादित वस्तुएं लदी थीं। 32 डिब्बों वाली यह ट्रेन चीन के झेजियांग प्रांत के ईऊ शहर से रवाना हुई थी। 10,399 किलोमीटर का सफर तय कर यह ट्रेन 14 दिनों में तेहरान पहुंची।
- ईरान के परिवहन एवं रेल मंत्री मोहसिन पुर सैयद अकेई के अनुसार यह मालगाड़ी फिलहाल महीने में एक बार चीन से ईरान के बीच चलेगी और अगर जरूरत हुई तो इसकी आवाजाही को और बढ़ाया जाएगा।
- यह ट्रेन एक प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाई जाएगी।
- सिल्क रोड एक प्राचीन व्यापारिक रास्ता था, जिससे चीन के सिल्क का व्यापार भूमध्य सागर से एशिया तक होता था।

अब चीन की योजना उस रुट को फिर से शुरू कर यूरोप के बाजार तक अपनी पहुंच बनाने की है।

जापान ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किया सैटेलाइट लांच

जापान ने संयुक्त रूप से विकसित एक अंतरिक्ष अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपित किया जो रहस्यमयी ब्लैक होलों का अध्ययन करेगा।

- एस्ट्रो-एच उपग्रह को एजेंसी, नासा और अन्य समूहों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे करीब 580 किलोमीटर की उंचाई पर स्थित करना है।
- यह ब्लैक होल और आकाश गंगाओं से निकलने वाली एकसरे का अवलोकन करेगा।
- दक्षिणी जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इस उपग्रह को जापान का एच 11 ए रॉकेट अंतरिक्ष में लेकर गया है।

भारत-म्यांमार समन्वित गश्त और मानक

प्रचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर

चार दिवसीय भारत-म्यांमार समन्वित गश्त का आरंभ 13 फरवरी 2016 को आरंभ हुआ, जिसमें भारतीय पोत सरयू एवं बित्र ने म्यांमार के पोत ऑंग ज़या एवं एफएसी 563 के साथ संयुक्त रूप से भाग लिया।

- भारतीय नौसेना एवं म्यांमार नौसेना ने 16 फरवरी 2016 को भारत-म्यांमार समन्वित गश्त (आईएमसीओआर) और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित पोर्ट ब्लेयर में हस्ताक्षर किये।
- एसओपी पर हुए इस हस्ताक्षर से भारत समुद्री गश्त पर समन्वित समझौता करने वाला तीसरा देश बन गया। यह हस्ताक्षर भारत-म्यांमार समन्वित गश्त (आईएमसीओआर) के चौथे संस्करण के समापन के दौरान किये गये।

यूएनपीए ने एलजीबीटी समानता को बढ़ावा देने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किए

4 फरवरी 2016 को संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (यूएनपीए) ने लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी और किन्नरों (एलजीबीटी) के समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक अभियान हेतु यूएन फ्री एंड ईक्वल को बढ़ावा देने के लिए छह स्मारक डाक टिकट का सेट जारी किया।

- अभियान की शुरुआत मानवाधिकारों के लिए उच्च आयुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) के नेतृत्व में किया गया।

भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता कैनबेरा में आयोजित

प्रधानमंत्री के सबके लिए किफायती ऊर्जा के स्वप्न को साकार करने के लिए केन्द्रीय कोयला, बिजली एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के संसाधन, ऊर्जा एवं उत्तर ऑस्ट्रेलिया मंत्री श्री जोश फ्राइडेनबर्ग के साथ कैनबेरा में ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत की।

- श्री गोयल ने ऊर्जा वार्ता पर दोनों में से प्रत्येक देश में नियमित रूप से वैकल्पिक वार्षिक बैठक आयोजित करने की जरूरत पर बल दिया।
- उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा की बातचीतों के दौरान एक परिणामकारी दृष्टिकोण रखने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए पांच नये कार्य समूहों – 1. नवीकरण एवं ग्रिड एकीकरण 2. कारगर बिजली सृजन के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियां 3. ऊर्जा कौशल विकास 4. कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) समेत कोयला गैसीकरण एवं 5. ऊर्जा कुशलता एवं स्मार्टग्रिड का गठन किया जाना चाहिए।

नाटो एवं यूरोपियन यूनियन ने साइबर सुरक्षा पर सहयोग हेतु समझौता किया

नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन (नाटो) एवं यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- इस तकनीकी समझौते पर ब्रुसेल्स स्थित नाटो के मुख्यालय में हस्ताक्षर किये गये जिसके तहत आधुनिक हाइब्रिडयुद्ध के समय पर सहयोग किया जा सके। इस समझौते के तहत आपातकाल प्रतिक्रिया टीमों का गठन किया जायेगा जिसमें नाटो एवं ईयू के सदस्य शामिल होंगे।

विश्व रेडियो दिवस मनाया गया

13 फरवरी, 2016 को विश्व भर में 'विश्व रेडियो दिवस' मनाया गया।

- वर्ष 2016 में 'विश्व रेडियो दिवस' का मुख्य विषय 'आपातकाल और आपदा के समय में रेडियो' था।
- वर्ष 2011 में यूनेस्को जनरल कांफ्रेंस ने 13 फरवरी को 'विश्व रेडियो दिवस' मनाने की घोषणा की थी।

वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की

भौतिक और खगोल विज्ञान के लिए की गयी एक महत्वपूर्ण खोज में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने 11 फरवरी 2016 को गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया।

- ये तरंगें ब्रह्मांड में भीषण टक्करों से उत्पन्न हुई थीं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार इससे ब्रह्मांड को समझने के नए रास्ते खुले हैं।

- इस टक्कर के बारे में तत्कालीन वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने 100 साल पहले कहा था कि इस टक्कर के बाद अंतरिक्ष में हुआ बदलाव सिर्फ टकराव वाली जगह पर सीमित नहीं रहेगा। उनके अनुसार इस टकराव के बाद अंतरिक्ष में ग्रैविटेशनल तरंगें (गुरुत्वाकर्षण तरंगें) पैदा हुईं और ये तरंगें किसी तालाब में पैदा हुई तरंगों की तरह आगे बढ़ती हैं।

कोलोरेडो राज्य महात्मा गांधी के जीवन को सम्मानित करेगा

अमेरिका का कोलोरेडो राज्य महात्मा गांधी की जिंदगी को सम्मानित करेगा।

- गांधीजी द्वारा अपना जीवन देश को अर्पित कर देने के कारण कोलोरेडो उनकी जिन्दगी को सम्मानित कर रहा है।
- गांधीजी द्वारा किये गये प्रमुख आन्दोलन थे – असहयोग आन्दोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि।

राष्ट्रीय

सरकार ने सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की

गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।

- इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र को उन्नयन किया जाएगा। यह घोषणा 5 फ़रवरी 2016 को नई दिल्ली में की गयी।
- यह परियोजना दो महीने में पूरी की जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और नई दिल्ली में सिक्किम कृषि मंत्री सोम नाथ पौडेल द्वारा लिया गया।

छत्तीसगढ़: पीएम मोदी ने लॉन्च किया आर-अर्बन मिशन

- प्रधानमंत्री ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के कुरुभूठा में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने लोगों को रूर्बन मिशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी के रूरल (ग्रामीण) और अर्बन (शहरी) शब्दों को मिलाकर रूर्बन मिशन बना है। रूर्बन मिशन के ज़रिए शहरों और गांव के सर्वोच्च गुणों को आपस में मिलना है। इसका मतलब है जीवटता गांव जैसा हो सुविधाएं शहर जैसी हों।

ओडिशा ने विदेशी पर्यटकों से प्रतिबंध हटाया

- ओडिशा सरकार ने विदेशी पर्यटकों के आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण से प्रतिबंध हटा दिया है।
- ओडिशा में कुल 62 आदिवासी क्षेत्र हैं।
- यह प्रतिबंध 3 वर्ष बाद हटाया गया है।

पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिब्रूगढ़ के समीप लेपेटकाटा में एक पेट्रो रसायन परिसर, ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड को देश को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के वैक्स प्लांट (मोम संयंत्र) को भी राष्ट्र के नाम किया।
- इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दो परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। यह दो कारणों से महत्वपूर्ण हैं –
- (1) प्राकृतिक कच्चे माल के लिए इनसे वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) प्राप्त होगा
- (2) असम के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने से जहां देश भर में खुशी (आनंद) है, वहीं असम में चौतरफा खुशी (सर्वानंद) है।

आईएमएफ नई दिल्ली में आयोजित करेगा 'एशिया सम्मेलन'

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत सरकार के साथ मिल कर अगले महीने नई दिल्ली में एशिया के आर्थिक प्रदर्शन पर का उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है।

- इसमें इस क्षेत्र की अगले चरण की नीतिगत चुनौतियों की पड़ताल और रोजगार सृजन तथा असमानता कम करने वाली वृद्धि के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
- भारत सरकार के सह-आयोजन वाला यह समारोह नई दिल्ली में 11 से 13 मार्च को होगा।

गंगा की सफाई के लिए आठ मंत्रालयों ने किया

समझौता

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने हेतु आठ केन्द्रीय मंत्रालयों ने एक संयुक्त सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

- इसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और आपसी तालमेल के साथ स्वच्छता पहल को गति प्रदान करना है।
- केन्द्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए 2015 से 2020 के दौरान करीब 20 हजार करोड़ रुपये की लागत की रूप रेखा तैयार की है।
- नमामि गंगे परियोजना का 100 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया

- 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया। इस दिन को महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा में काफी प्रयास किये थे।

पहला वैश्विक समुद्री सम्मेलन भारत में

प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इस साल अप्रैल में प्रथम वैश्विक समुद्री सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री स्थायित्व किसी एक राष्ट्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे।
- उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एक समुद्री देश रहा है।

42वां खजुराहो डांस फेस्टीवल शुरू

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में एक सप्ताह तक चलने वाला '42वां खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हो गया है। समारोह के आयोजन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि देश के सबसे प्रसिद्ध नृत्य समारोहों में से एक इस समारोह में कालाकारों द्वारा शास्त्रीय नृत्य सहित कथक, भरतनाट्यम् ओडिसी, और कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किये जाएंगे। इसके साथ ही समारोह में महीषासुर मर्दिनी और कृष्ण रासा जैसी प्राचीन कथाओं का चित्रण किया जाएगा।

मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा 42वें खजुराहो

नृत्य समारोह विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है। चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिर 950 से 1050वीं ईसवी के मध्य निर्मित किये गये थे।

रिको को ओडिशा के स्कूलों में कम्प्यूटर लगाने के लिए मिला ऑर्डर

प्रिंटिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी रिको इंडिया को केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 344 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके तहत ओडिशा के 2,000 सरकारी स्कूलों को कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति की जाएगी। रिको इंडिया ने बंबई शेयर बाजार को बताया, कंपनी को ओडिशा में 2,000 सरकारी और सरकार समर्थित उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर उपकरण लगाने, सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर शिक्षा उपकरण के प्रावधान और उपकरण के मरम्मत आदि के लिए ऑर्डर मिला है। पिछले सप्ताह जापान के रिको समूह की अनुषंगी रिको इंडिया ने कहा था कि वह चालू वित्त वर्ष में 55 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य पर निगाह रखे हुए है।

भारत और आर्मेनिया ने कृषि सहयोग समझौता जापान पर हस्ताक्षर किये

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह और आर्मेनिया के कृषि मंत्री श्री सर्गोकरापेत्यान के बीच आज एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के दरमियान सहयोग के अनेक क्षेत्रों में भागीदारी के बारे में विचार

विमर्श किया और न केवल व्यापार और निवेश संभावनाओं को उत्प्रेरित करने के बारे में बल्कि दोनों देशों में वर्षों से संचित ज्ञान को साझा करने के लिए भी भागीदारी को और मजबूत करने के बारे में जोर दिया।

- दोनों मंत्रियों ने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता जापान में पादप प्रजनन, कृषि फसल बीज प्रजनन और पादप संरक्षण, भैंस प्रजनन और कुक्कुट पालन, शुष्क भूमि में कृषि संगठन पर अनुभवों के आदान प्रदान, दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण, कृषि खाद्य परिसर में खेती की नई विधियों का विकास, कृषि शिक्षा, कृषि विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण, सिंचाई और जल प्रबंधन (वर्षा जल) फलदार वृक्षों के आदान-प्रदान की उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणालियां, फलदार वृक्षों के रोग प्रबंधन में अनुसंधान और तकनीकी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, कृषि मशीनरी/उपकरणों सहित कृषि खेती के मशीनीकरण में प्रौद्योगिकीय जानकारी का आदान-प्रदान, सिंचाई और जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी सहित उच्च तकनीकी बागवानी, प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी

पर जानकारी का आदान-प्रदान, पशु पहचान सहित पशु पालन और कृषि जनसंख्या के क्षेत्र में सहयोग जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं।

महाराष्ट्र : सड़क पर थूकने का लगोगा 1000 रुपये का जुर्माना

महाराष्ट्र की सरकार अब सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में " एंटी-स्पिटिंग" कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माने के साथ-साथ समाज सेवा भी करना पड़ेगा।

- पारित हुए कानून के मुताबिक 1000 रुपये जुर्माने का साथ एक दिन सरकारी अस्पताल या सरकारी ऑफिस में सामाजिक काम करना पड़ेगा।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 3000 रुपये का हो जाएगा और तीन दिन सामाजिक काम करने पड़ेंगे अगर तीसरी बार पकड़े गए तो जुर्माने की रकम 5000 हो जाएगी और साथ ही पांच दिन सामाजिक काम करने पड़ेंगे।

एड्स के खिलाफ प्रोजेक्ट सनराईज का आगाज

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए इम्फाल में प्रोजेक्ट सनराईज का शुभारम्भ किया।

- इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन-नाको की मौजूदा परियोजना से अलग इस परियोजना को लागू किया जाएगा।
- इस परियोजना को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के बीस जिलों में लागू किया जाएगा।

भारत - नेपाल बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्याभ्यास 'सूर्य किरण' 08 फरवरी से

9वां भारत-नेपाल संयुक्त बटालियन स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'सूर्य किरण' केन्द्रीय कमान के पंचशूल ब्रिगेड के तत्वावधान में 08 से 21 फरवरी, 2016 तक पितौरागढ़ में होगा।

- अभ्यास के दौरान भारतीय सेना और नेपाल की सेना की इन्फैन्ट्री बटालियन एक साथ प्रशिक्षण लेंगी और पर्वतीय क्षेत्र में 'जंगल वॉरफेयर' तथा आतंकवाद रोधी कार्रवाई संबंधी अनुभवों को साझा करेंगी।
- 'सूर्य किरण' सैन्याभ्यास नेपाल और भारत में बारी-बारी से दो वर्षों में एकबार होता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच पर्वतीय क्षेत्र में 'जंगल

वॉरफेयर' तथा आतंकवादरोधी कार्रवाई के विषय में अपनी क्षमता बढ़ाना है।

- प्रशिक्षण में मानवीय सहायता और चिकित्सा तथा वायुयानों से राहत पहुंचाने संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

भारत का पहला विमानन पार्क गुजरात में

गुजरात में विमानन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यहां देश का पहला विमानन पार्क स्थापित करने की योजना बनायी है। इसके तहत एक हवाई पट्टी, प्रशिक्षण विद्यालय, हैलीपेड और छोटी विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।

- सरकार के स्वामित्व वाली गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (गुजसेल) के अधिकारियों के अनुसार इस एकीकृत पार्क का उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं और कारोबारी संस्थाओं के बीच यह जागरूकता फैलाना है कि विमानन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं।
- सरकार ने इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी गुजसेल को सौंपी है और इसके लिए उसने हाल ही में बागडोरा के पास एक जमीन की पहचान की है। गुजसेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन अजय चौहान के अनुसार इस विमानन पार्क का मुख्य उद्देश्य निवेशकों, छात्रों और लोगों को बड़े पैमाने

पर विमानन क्षेत्र की क्षमताओं के बारे में जागरूक करना है।

पर्यटकों के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शुरू होगी हेल्पलाइन

पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि अतुल्य भारत पर्यटक हेल्पलाइन 12 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अगले दो माह के अंदर शुरू होगी ताकि भारत आने वाले पर्यटकों की समस्याओं का समाधान हो सके।

डॉ.महेश शर्मा ने कहा कि पर्यटन काफी हद तक देश की छवि पर निर्भर है और पर्यटन मंत्रालय पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव कायम करने के उद्देश्य से पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार के लिए पर्यटन को शीर्ष प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्वभर में भारत को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा दूत बन गए हैं।

- डॉ.महेश शर्मा ने बताया कि सरकार मार्च 2016 तक 150 देशों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा उपलब्ध कराएगी। पिछले नवम्बर में ई-टूरिस्ट वीजा की शुरुआत के बाद 76 देशों के 1.5 लाख से भी अधिक लोगों ने ई-टूरिस्ट वीजा प्राप्त किए हैं।
- इस कार्यशाला में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में सचिव डॉ. ललित के. पंवार और पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों

के साथ-साथ राज्यों के पर्यटन विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

2020 तक तटरक्षक बल में शामिल किए जाएंगे

38 और विमान

भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी सतर्कता, तलाशी और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 तक अपने बेड़े में हेलीकॉप्टरों सहित 38 और विमान शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

- क्षमता बढ़ाने की इस योजना के तहत समुद्री सुरक्षा बल उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच), दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर और समुद्री बहु-अभियान सतर्कता विमानों (एमएमएसए) को शामिल करेगा। तटरक्षक बल के पास इस समय बेड़े में 62 विमान एवं हेलीकॉप्टर हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तटरक्षक बल 16 एएलएच की खरीदारी के लिए आगामी तीन से चार महीनों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।
- वह दो इंजन वाले 14 भारी हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी विचार कर रहा है। तटरक्षक बल की नजर एयरबस के यूरोकॉप्टर पर है लेकिन उसे इन्हें प्राप्त करने में दो वर्ष का समय लग सकता है क्योंकि इस मामले में रक्षा मंत्रालय में प्रस्ताव लंबित है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर केन्द्र सरकार ने जारी किया 'हाइड्रोकार्बन विजन-2030'

देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की महत्ता को अंकित करते हुए केन्द्र सरकार ने 'हाइड्रोकार्बन विजन-2030' जारी किया है।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 'हाइड्रोकार्बन विजन-2030' जारी करते हुए केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का भंडार है। इसके सही तरह के इस्तेमाल को देखते हुए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है ताकि इन राज्यों के विकास के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का भरपूर उपयोग किया जा सके। विजन का लक्ष्य कौशल विकास को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने और घरों में स्वच्छ ईंधन सुलभ कराने पर ध्यान केन्द्रित करना है।
- उन्होंने बताया कि विजन-2030 पांच स्तम्भों पर आधारित है। ये हैं- लोग, नीति, भागीदारी, परियोजनायें और उत्पादन। इसके साथ ही इसमें विभिन्न हितधारकों, औद्योगिकी खिलाड़ियों और राज्य सरकारों की संलग्नता एवं सुझावों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए न केवल एक महत्वाकांक्षी, बल्कि कार्रवाई योग्य खाका भी पेश किया गया है।

UAE के प्रिंस भारत पहुंचे, PM मोदी ने हवाई अड्डे पर की अगवानी

अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज नई दिल्ली पहुंच गए और हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकाल से इतर जाकर उनकी अगवानी की।

- उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत और यूएई के संबंधों में नयी शक्ति और गति मिलेगी।
- नाहयान के तीन दिवसीय दौरे पर दोनों देश उर्जा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के उपायों पर चर्चा करेंगे तथा तेल, परमाणु उर्जा, आईटी, अंतरिक्ष, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया गया

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के नेशनल डीवॉर्मिंग डे का शुभारंभ किया।

- नवजात शिशुओं और स्कूली बच्चों को परजीवी कृमि संक्रमण से संरक्षित करने के लिए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष

10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है।

- सर्वप्रथम इस दिवस का आयोजन वर्ष 2015 में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। जिसके अन्तर्गत 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेश के 277 जिलों के 1 से 19 वर्ष आयु के बच्चों को कवर किया गया था।

महाराष्ट्र इंटरनेट तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर

भारतीय इंटरनेट एवं मोबाईल संघ की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट तत्परता सूचकांक में महाराष्ट्र देश भर में प्रथम स्थान पर है।

- महाराष्ट्र ई-इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-गवर्नेंस, आईटी सेवाओं आदि मामलों में अग्रणी रहा।
- महाराष्ट्र के बाद क्रमशः कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना व तमिलनाडु का स्थान है।

आईएनएस विराट को लग्जरी होटल में बदला जायेगा

जून में सेवानिवृत्त होने वाले विश्व के सबसे पुराने एयरक्राफ्ट वाहक आईएनएस विराट को आलिशान होटल में बदला जायेगा।

- इसका प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश पर्यटन मंत्रालय ने रखा था जिसे राक्षा मंत्रालय ने सहमती दे दी।

- इसे 500 कमरों वाले होटल में बदलकर विशाखापत्तनम में स्थापित किया जायेगा।

तीसरा 'ताज साहित्य पर्व' आगरा में

तीसरा 'ताज साहित्य पर्व' आगरा में होगा।

- तीन दिवसिय पर्व 26 फरवरी से शुरू होगा।
- इसमें 16 अलग-अलग श्रेणी होंगी जिसमें संगीत, थियेटर, राजनीति, पाककला, हास्य आदि शामिल हैं।

माल ढुलाई के लिये दिल्ली हवाई अड्डे पर मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डायल) ने माल ढुलाई परिचालन के लिये मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इससे कागजी कार्य कम करने में मदद मिलेगी और माल ढुलाई की स्थिति के बारे में वास्तविक समय के आधार पर नजर रखी जा सकेगी।

- राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली डायल ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन से सीमा शुल्क विभाग से माल की इलेक्ट्रानिक मंजूरी से मदद मिलेगी।
- डायल ने आज एक विज्ञप्ति में कहा कि इससे माल ढुलाई गतिविधियों पर जहां नजर रखी जा सकेगी वहीं लागत कम होगी और संसाधनों की बचत होगी।

- एप्लीकेशन 'डायल कार्गो' पहले से परिचालन में आ चुका है।

नागपुर में 24वें राष्ट्रीय होमियो पैथिक कांग्रेस 'होमियो-विजन 2016' का उद्घाटन

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री श्रीपद येस्सो नाईक ने नागपुर में 24वें राष्ट्रीय होमियो पैथिक कांग्रेस 'होमियो-विजन 2016' का उद्घाटन किया।

- भारतीय होमियो पैथी चिकित्सक संस्थान (आईआईएचपी), महाराष्ट्र राज्य शाखा, नागपुर ने होमियो पैथी में प्रौद्योगिकी, अन्वेषक अनुसंधान तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा में हाल के उन्नयनों पर चर्चा करने के लिए इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (13 व 14 फरवरी 2016) का आयोजन किया है।
- उन्होंने शिक्षा, अनुसंधान, दवा विकास एवं स्वास्थ्य आपूर्ति जैसे चार अहम क्षेत्रों को विकसित करने के आयुष मंत्रालय के लक्ष्य पर भी जोर दिया।

झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का रांची में शुभारंभ

उत्तरी भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का रांची में शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रांची जिले के गेटलसूद गांव में इस पार्क का उद्घाटन किया है।

- यह मेगा फूड पार्क 51.50 एकड़ क्षेत्र में बना है और इस पर निर्माण परियोजना लागत 114.73 करोड़ रुपए आई है।
- इस पार्क में बहु-स्तरीय शीत भंडारण, शुष्क माल गोदाम, सब्जियों के डिहाइड्रेशन लाइन, आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशाला सहित फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण जैसी दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं।
- झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास को गति देने के लिए मेसर्स झारखंड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड की ओर से राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का शुभारंभ हुआ।

ओडिशा से किया गया पृथ्वी-2 मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण

भारत ने मंगलवार को चांदीपुर के एक परीक्षण केंद्र से पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। यह प्रक्षेपण सेना के प्रायोगिक परीक्षण के तहत किया गया है।

- पृथ्वी 2 देश में निर्मित मिसाइल है। यह मिसाइल 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है।
- रक्षा अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल को सुबह करीब 10 बजे एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के प्रक्षेपण परिसर-3 से एक मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर

की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल दो लिक्विड प्रपल्शन इंजन से चलती है।

- पृथ्वी 2 मिसाइल को साल 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यह पहली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने 'इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलेपमेंट प्रोग्राम' के तहत तैयार किया था।

भारत की सबसे हल्की गन "निडर" लांच

सरकारी हथियार कारखाने में बनायीं सबसे हल्की गन "निडर" लांच हो गई है जिसे भारत की सबसे हल्की बन्दूक बताया जा रहा है।

- इसे पश्चिम बंगाल के इशापुर राइफल कारखाने ने बनाया है।
- नई बन्दूक .22 कैलिबर रिवाल्वर है जिसका नाम "निडर" रखा गया है। यह एक मात्र 250 ग्राम (8.8 औंस) वजन की है और इसकी कीमत 35,000 रुपए (513 \$, £ 357) - रखी गयी है।

वार्षिकी- भारत-2016 और इंडिया-2016 का विमोचन

सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने संदर्भ वार्षिकी- इंडिया-2016 और भारत-2016 का विमोचन किया।

- इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि इंडिया-2016 में विस्तृत जानकारी दी गई है और संसद के उनके सहयोगियों के

लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया-2016 में दी गई जानकारीयां बहुत उपयोगी हैं और सबको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

- श्री अरुण जेटली ने पुस्तक के ई-प्रारूप का भी विमोचन किया।

टाटा ने किया भारत में बने रोबोट का अनावरण

टाटा मोटर्स की टीएएल मेन्युफेक्चरिंग टीम ने मई 2014 में एक प्रोटोटाइप रोबोट तैयार किया जिसे अब अनावरित किया गया है। इस रोबोट का नाम ब्राबो दिया गया है।

- कंपनी का लक्ष्य किसी भी रोबोट बनाने वाली बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, कंपनी भारत में ही माइक्रो, स्माल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 3 से 6 और 10 लाख रुपये में रोबोटिक सॉल्यूशन देना है।
- रोबोट को मुंबई में मेक इन इंडिया वीक के दौरान पेश किया गया। इस रोबोट को बनाने में 10 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसे कंपनी के ही 6 इंजीनियरों की टीम ने बनाया है।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा, जेएनयू से होगी शुरुआत

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में एक बैठक में स्वीकार एक प्रस्ताव में कहा गया कि सभी 46 केन्द्रीय विश्वविद्यालय “मजबूत भारत”

दिखाने के लिए अपने परिसरों में “शान और गर्व के साथ” 207 फुट ऊंचे खंभे पर तिरंगा फहराएंगे और सबसे पहले इसे जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) विश्वविद्यालय में लगाया जाएगा।

- स्मृति की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, “हर विश्वविद्यालय में किसी केन्द्रीय स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज शान और गर्व के साथ फहराया जाएगा।”

जया ने अब वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया

तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा नाम से मशहूर जयललिता ने अब वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है।

- पहले चरण में यह योजना राजधानी चेन्नई में मुख्यमंत्री जयललिता के जन्म दिवस 24 फरवरी से लागू होगी। जया ने यह घोषणा राज्य विधान सभा में की।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, 'हमने 2011 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था।
- सफर के दौरान बुजुर्ग लोग टोकन देकर मुफ्त बस यात्रा कर सकते हैं। उनका कहना था कि पहले चरण में यह योजना चेन्नई में लागू की जा रही है। बाद में इसे

राज्य के बाकी हिस्सों में लागू किया जाएगा। इससे पहले भी जयललिता राज्य में कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर चुकी हैं।

'मेक इन इंडिया' वीक का समापन

देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सबसे बड़ा कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया सप्ताह' समाप्त हो गया।

- आयोजकों के मुताबिक 15 लाख करोड़ रुपये (220 अरब डॉलर) से अधिक निवेश का वादा मिला, जिसमें आधा से अधिक यानी, 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश वादा महाराष्ट्र के लिए मिला।
- इस आयोजन में करीब 10 लाख दर्शक, 8,245 बैठकें, 1,245 भारतीय और विदेशी वक्ता, 215 प्रदर्शक और 102 देश शामिल हुए।

लिगो-भारत वृहत विज्ञान प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए लिगो-भारत वृहत विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गयी।

- परमाणु ऊर्जा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा

लिगो-भारत परियोजना के नाम से प्रसिद्ध प्रस्ताव को शुरू किया गया है।

- देश में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वेधशाला, लिगो-भारत परियोजना अमरीका में लिगो प्रयोगशाला चलाने वाली केल्टेक और एमआईटी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों की गहराई में जाकर अध्ययन करने और नये खगोलीय क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।

आर्थिक समीक्षा 2015-16: मुख्य तथ्य

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2015-16 पेश किया। आर्थिक समीक्षा 2015-16 में आगामी दो वर्षों में भारत का विकास दर 8 प्रतिशत से भी अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था वृहद आर्थिक स्थिरता, गतिशीलता एवं आशा के केन्द्र के रूप में उभरी है और आगामी वर्ष में जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है।
- वैश्विक अनिश्चितताओं और कमजोर मॉनसून के बावजूद भारत ने वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की।
- वैश्विक मंदी के बावजूद, सामान्य मॉनसून के कारण वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार तीसरे

वर्ष सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि जारी रहने की उम्मीद।

- सुधार प्रक्रिया को लगातार जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण अगले दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था की बढ़ोत्तरी की गति आठ प्रतिशत या अधिक हासिल करने की स्थितियां मौजूद है।

लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक

2016 पेश

- लोकसभा में विधि मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 पेश किया जिसके तहत परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 9 में संशोधन करने की बात कही गई है।
- सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक दोनों सदनों में बिना चर्चा के पारित हो जायेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली के बाद काफी लोग देश के नागरिक बने हैं और इन लोगों को विधानसभा एवं संसदीय चुनाव में मतदान का अधिकार देने की पहल की जा रही है। प्रस्तावित चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 के पारित होने पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन कार्य को आगे बढ़ा सकेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय के दोहरे कराधान से बचने हेतु भारत-मालदीव समझौते को मंजूरी दी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन से आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।
- यह समझौता भारत और मालदीव की एयरलाइन उद्यमों के लिए कर निश्चितता प्रदान करेगा।

अरुणाचल: बीजेपी के सहयोग से कालिखो बने सीएम

दो महीने तक चले राजनीतिक संकट के बाद बागी कांग्रेस नेता कालिखो पुल ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्य मंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पुल को राज्यपाल के पी राजखोवा ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

- 48 साल के पुल ऐसी सरकार के मुखिया हैं जिसे 19 बागी कांग्रेस विधायकों का समर्थन और बाहर से 11 बीजेपी विधायकों और दो निर्दलीयों का समर्थन हासिल है जो राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में सरकार का हिस्सा हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रूबन मिशन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले के कुरुभात नामक स्थान से राष्ट्रीय रूबन मिशन का शुभारंभ किया।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार रूबन मिशन 'ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं' से युक्त कलस्टर आधारित विकास करने में सक्षम होगा।
- रूबन केन्द्रों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे आसपास के गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
- रूबन मिशन के लिए प्रदेश के चार जिलों धमतरी, कबीर धाम, बस्तर और राजनांद गांव का चयन किया गया है, जहां चार ग्राम समूह बनाए जाएंगे। देश में 300 रूबन केंद्र शुरू किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से वर्ष 2016 में 100 केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया

मध्य प्रदेश में आयोजित किसान मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर योजना

का शुभारंभ किया। किसान 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश के शेरपुर गांव में आयोजित किया गया।

- फसल बीमा पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- 'किसानों की आर्थिक सुरक्षा' को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को मंजूरी दी।
- योजना वर्ष 2016 के खरीफ मौसम से (भारत में जून से अक्टूबर) अस्तित्व में आ जाएगी। योजना के माध्यम से किसानों की फसल का बीमा हो सकेगा। जिससे फसल में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान उबर सके।
- फसल का बीमा कराने के लिए खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा केवल 2 प्रतिशत और रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत भुगतान किया जाना है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए एक समान वार्षिक प्रीमियम 5 प्रतिशत हो जाएगा।
- प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि कर्मण पुरस्कार के एक ट्राफी भी प्रदान की।
- किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पीएम मोदी को भी किसान मित्र और किसान हितेषी सम्मान से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केरल को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केरल को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया है। कोझिकोड में शनिवार को समारोह को संबोधित करते हुये श्री मुखर्जी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में केरल की प्रगति प्रशंसनीय रही है।

उन्होंने देश का पहला यू. एल. साइबर पार्क राज्य को समर्पित किया। इसे सहकारी संस्था ने बनाया है। उन्होंने कहा कि यह पार्क केरल को सूचना प्रौद्योगिकी में देश के अग्रणी राज्यों की बराबरी पर ले आयेगा।

श्री मुखर्जी ने विकास और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय विभाग के जेंडर पार्क का भी उद्घाटन किया।

13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (डब्लूएससी) अहमदाबाद में शुरू

13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (डब्लूएससी) अहमदाबाद में शुरू हो गई है। अब तक इसके लिए 243 देशी विदेशी प्रतिनिधियों का पंजीयन हो चुका है जबकि 81 स्टॉल की बुकिंग भी हो चुकी है।

वर्ष 2014 में यह सम्मेलन केरल के कोच्चि में हुआ था और इस बार अहमदाबाद को चुना गया है।

अहमदाबाद को चुनने का कारण जीरा, धनिया, राई, सौंफ वगैरह का गुजरात सबसे बड़ा उत्पादन और विपणन केंद्र है।

मुंबई पुलिस ने 16 स्थान 'नो सेल्फी' क्षेत्र घोषित किए

मुंबई पुलिस ने पूरे महानगर में 16 स्थानों को "नो सेल्फी ज़ोन" घोषित किया है। यह कार्रवाई सेल्फी लेने के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण की गयी।

- पुलिस द्वारा यह कार्रवाई खतरनाक स्थानों पर लोगों को जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने से रोकने के उद्देश्य से की गयी है।

वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम गुवाहाटी में संपन्न

असम में तीन दिन का वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम गुवाहाटी में संपन्न हो गया है। इस दौरान सेमिनार, कार्य शालाएं, व्यापार बैठकें और प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

- इस बीच आकाशवाणी से बातचीत में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नॉलोजी अप्लीकेशन एंड रीच-नेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी जनरल जी एस चंदेला ने बताया कि नेक्टर, फसल को हुए नुकसान के आकलन के लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करेगा।
- उन्होंने बताया कि अब तक तीन बीमा कंपनियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उनसे संपर्क किया है।

इससे पहले ये अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के पास होते रहे हैं।

रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे से संबंधित तीन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ परियोजनाओं का शुभारंभ किया

रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे से संबंधित तीन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ परियोजनाओं का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है।

- इसके तहत रेल मंत्री ने रेल भवन में आयोजित एक समारोह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तीन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ परियोजना: (i) टीटीई के लिए हाथ में रखे जाने वाले टर्मिनल, (ii) कागज रहित अनारक्षित टिकटिंग मोबाइल एप्लीकेशन एवं (iii) रेलगाड़ियों में डिस्पोजेबल चादरों की ई-बुकिंग का उद्घाटन किया गया है।

गोआ में भारत ब्राज़िल दक्षिण अफ्रीका अभ्यास शुरू

- भारतीय नौसेना की साइट पर प्रकाशित प्रेस-रिलीज़ में बताया गया है कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'आइबीएसअमर' (IBSAMAR) भारत-तट के समीप आरम्भ हुए हैं।
- ये अभ्यास पांचवीं बार हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जल-क्षेत्र में ये पहली बार हो रहे हैं। अभ्यास 19 से 29 फरवरी तक चलेंगे।

दिल्ली में 15-30 अप्रैल को फिर लागू होगा ऑड-ईवन फॉर्मूला

दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम फिर से 15 से 30 अप्रैल को लागू होगी। दिल्ली सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस कर सूचित किया कि ऑड-ईवन स्कीम का दूसरा फेज फिर से शुरू किया जाएगा।

- ऑड-ईवन स्कीम के रूल से महिलाओं को छूट मिलेगी। ऑड-ईवन स्कीम का 80 फीसदी लोगों ने समर्थन किया था।
- टू व्हीलर, सीएनजी कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, महिला ड्राइवर, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अलावा राज्यों के मुख्य मंत्री, फायर, एंबुलेंस, इमरजेंसी व्हीकल्स, डिफेंस मिनिस्ट्री के व्हीकल्स, डिप्लोमैट की कारों और अस्पताल जा रही गाड़ियों को इस नियम से छूट मिलेगी।

राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह 9 फरवरी से मुंबई में

छठा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह (एनएसएफएफ) 9 फरवरी से मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में शुरू हुआ।

- समारोह का आयोजन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय विज्ञान प्रसार कर रहा है। समारोह में 35 लघुफिल्मों को दिखाए जाने के लिए चुना गया है।
- समारोह का उद्घाटन प्रख्यात फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल और डॉमाइक पांडे ने किया।
- समारोह में लगभग 175 फिल्म निर्माता हिस्सा ले रहे हैं और विजेता फिल्मों को सिल्वर बीवर पुरस्कार और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जूरी की चेर परसन श्याम बेनेगल हैं।

केंद्र ने 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना (एनएफएमई) 2016-2030 लांच किया, जो 2030 तक इस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत की रणनीति को रेखांकित करती है।

- इस बीमारी द्वारा पेश की जाने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को देखते हुए 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय संरचना का निर्माण एक ऐतिहासिक कदम है।
- सचिव (एचएफडब्ल्यू) श्री बी पी शर्मा ने इस मुद्दे से निपटने के लिए चरण बद्ध तरीके के दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि

मलेरिया उन्मूलन का परिणाम बीमारी नियंत्रण कार्यक्रमों पर खर्चों की कमी के रूप में आएगा।

रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये

छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन हेतु रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार ने 09 फरवरी 2016 को एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

- इस एमओयू के तहत गठित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों में राज्य सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी और रेल मंत्रालय की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी।
- इस तरह संयुक्त उद्यम कंपनियों पर राज्य सरकार का ही स्वामित्व होगा। ये कंपनियां मुख्यतः परियोजनाओं की पहचान करेंगी और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अलावा वित्त पोषण के संभावित अवसरों को तलाशेंगी।

पीएम ने मुंबई में मेक इन इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया

देश में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में मेक इन इंडियावीक का उद्घाटन किया।

- मेक इन इंडिया वीक 18 फरवरी तक चलेगा।
- 'मेक इन इंडिया' पहल को बड़ा आयाम देने और दुनिया को निर्माण क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए 'मेक इन इंडिया' वीक को बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'साल भर में मेक इन इंडिया भारत में अब तक का सबसे बड़ा प्लान बन गया है।

भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेला

भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में भी विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेले का आयोजन किया गया।

- यूनेस्को ने सन् 2011 में ही विश्व-स्तर पर रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया। 13 फरवरी का दिन 'विश्व रेडियो दिवस' के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 13 फरवरी सन् 1946 से ही रेडियो यू०एन०ओ० यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी।
- आकाशवाणी कटक के निर्देशक सुभाष मुबात्रा ने रेडियो तेहरान के समाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में रेडियो तेहरान की हिन्दी सेवा ने विश्व भर में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो फ़ेयर के आयोजक सुब्रतो कुमार ने रेडियो तेहरान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए

कहा कि रेडियो तेहरान के मेले में आने से मेले का महत्व बढ़ गया है।

बीएचयू के 100 वर्ष पूरे

मदन मोहन मालविय द्वारा स्थापित बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय ने 100 साल पूर्ण कर लिये हैं।

- इस विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी।
- यह भारत के इतिहास व आधुनिक विश्व के बीच एक सेतू की तरह कार्य करता है।

अम्मा पेयजल योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री जयललिता ने शनिवार को राज्य में गरीबों और वंचित लोगों के लिए अम्मा पेयजल योजना की शुरुआत की।

- इस योजना का उद्देश्य गरीबों और दबे कुचले लोगों को मुफ्त में मिन्नरल वाटर उपलब्ध कराना है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कदम के रूप में 100 मोहल्लों में आरओ तकनीक आधारित पेयजल वितरण इकाइयां लगाएगी।
- उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रणाली से प्रत्येक परिवार को रोजाना 20 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा।

30वां सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1

फरवरी से शुरू

- हरियाणा पर्यटन का अति लोकप्रिय समारोह, 30वां सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली से 15 फरवरी, 2016 तक फरीदाबाद के सूरजकुण्ड में आयोजित किया जाएगा।
- यह मेला भारत के हस्तशिल्पों, हथकरघों तथा सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि तथा विविधता को दर्शाता है। इस उत्सव ने पाक्षिक मेले के दौरान 10 लाख से अधिक घरेलू और विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करके बड़ी ही प्रतिष्ठा और ख्याति अर्जित कर ली है।

टूरिस्ट प्लेस की सफाई के लिए सरकार ने लॉन्च

किया 'स्वच्छ पर्यटन' एप

टूरिस्ट स्पॉट्स की साफ-सफाई पर नजर रखने के लिए एक खास एप 'स्वच्छ पर्यटन' लॉन्च किया गया है। अगर आपको कहीं गंदगी मिले तो उसकी तस्वीर पर आप इस एप पर शेयर कर सकते हैं। दावा है कि इस शिकायत पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा।

इस एप को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने लॉन्च किया है।

उदय योजना से जुड़ा बिहार, एमओयू पर

हस्ताक्षर करने वाला छठा राज्य

राज्य के सभी लोगों को चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और बिहार के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। केन्द्र सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष यह समझौता हुआ। इस समझौता का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। आम उपभोक्ताओं को भी किफायती दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

उदय में शामिल होने के बाद अब यह भार केन्द्र सरकार उठाएगी और उपभोक्ता किफायती बिजली का लाभ उठा पाएंगे। यादव ने बिहार को उदय में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बिहारवासियों के लिए ऐतिहासिक है।

कटनी में बनेगा देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज,

14 किमी होगी लंबाई

देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज प्रदेश के कटनी जिले में बनेगा। 14 किमी लंबे इस ब्रिज को बनाने में 582 करोड़ खर्च होंगे। ब्रिज 5 साल में बनकर तैयार होगा। अभी देश का सबसे लंबा ब्रिज केरल के कोच्चिं के पास 4.62 किमी है। ब्रिज की डिजाइन और सर्वे का पूरा हो गया है।

ब्रिज से गुजरनी वाली एक लाइन 14 किमी लंबी होगी और दूसरी तकरीबन 7 किमी की। यह ब्रिज

कटनी यार्ड के ऊपर से होते हुए बीना लाइन को जोड़ेगा।

भारत फिर बना हथियारों का सबसे बड़ा

आयातक

भारत एक बार फिर दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक साबित हुआ है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने बताया कि रूस हथियारों और सैन्य साजो सामान का सबसे बड़ा निर्यातक है। थिंकटैंक ने दुनिया भर में आयात किए जाने वाले हथियारों और सैन्य साजो सामान में भारत का हिस्सा 14 फीसदी बताया है। मालूम हो कि वर्ष 2013, 2014 व 2015 में भी भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था।

सुरेश प्रभु ने पेश किया रेल बजट 2016-17

वर्ष 2016-17 के लिए गुरुवार को पेश रेल बजट में यात्री किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे ने तीन नई सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू करने और वर्ष 2019 तक समर्पित उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम और पूर्वी तटीय माल दुलाई गलियारा बनाने की घोषणा की।

लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के किराए भाड़े की दरों को तर्कसंगत बनाने का वादा किया, ताकि रेलवे एक आधुनिक परिवहन प्रणाली के रूप में परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा कर सके।

रेल बजट 2016-17 में तीन नई सुपरफास्ट रेल गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है। इनमें

हमसफर नाम की गाड़ियां पूरी तरह से वातानुकूलित 3एसी के डिब्बों वाली होंगी जिनमें भोजन का भी विकल्प होगा। वहीं तेजस नाम से चलाई जाने वाली नई गाड़ियां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और इनमें मनोरंजन, वाईफाई तथा स्थानीय व्यंजनों जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रभु ने वर्ष 2016-17 में भारतीय रेलवे के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए के योजना व्यय का प्रस्ताव किया।

संजय दत्त जेल से रिहा

संजय दत्त गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे पुणे की यरवदा जेल से बाहर आ गए। अवैध हथियार रखने के केस में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। पत्नी मान्यता दत्त और फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने उन्हें जेल के बाहर रिहा किया। इससे पहले उनकी रिहाई के खिलाफ कुछ लोगों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया। टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई थी। पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कम कर 5 साल कर दी। वे अब पूरी सजा काट चुके हैं। अब उन पर कोई केस पेंडिंग नहीं है।

व्यापार व बैंकिंग

PNB ने 904 फर्मों को किया "विलफुल

डिफॉल्टर" घोषित

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने लगभग 904 फर्मों की एक सूची जारी की है जिसे उसने विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाली श्रेणी में रखा है। इन फर्मों पर बैंक का लगभग 11,000 करोड़ रूपए बकाया है।

इस सूची में विनसम डायमंड्स एंड जूलरी, जूम डेवल्पर्स व नाफेड का नाम शामिल है। उल्लेखनीय है कि बैंक ने हाल ही में संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस व इसकी गारंटीदाता यूबी होल्डिंग्स एवं विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया था। किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंक का 1,500 करोड़ रूपए बकाया है।

चीन को रोकने के लिए भारत ने उठाए कदम,

चाहबहार के लिए 150 मिलियन डॉलर मंजूर

ईरान के सख्त तेवरों के बाद भारत ने चीन को रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के 'द्वार' चाहबहार के विकास का रास्ता साफ करते हुए भारत ने 150 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है।

जल्द ही, रेल और स्टील परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 345 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ईरान के चाहबहार बंदरगाह के विकास के लिए कैबिनेट ने 150 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूर कर लिया है।

आरबीआई ने 26 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द

किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है।

आरबीआई द्वारा रद्द किये गये इन 26 कम्पनियों के पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत रद्द किये गये।

पंजीकरण रद्द करने के निर्णय की बाद निम्नलिखित कम्पनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर सकतीं।

ओडिशा में पीडीएस प्रणाली आधारित

कम्प्यूटरीकृत पायलट परियोजना का शुभारम्भ

ओडिशा में पीडीएस प्रणाली आधारित कम्प्यूटरीकृत पायलट परियोजना का शुभारम्भ किया है।

ओडिशा सरकार ने ऑटोमेशन सिस्टम आधारित फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) कम्प्यूटरीकृत पायलट परियोजना का शुभारम्भ किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत

आवश्यक वस्तुओं के वितरण की निगरानी के उद्देश्य से परियोजना का शुभारम्भ किया गया। प्रारंभ में परियोजना भुवनेश्वर के बाहरी इलाके धौली ग्राम पंचायत में शुरू की गयी। मार्च 2017 तक यह राज्य भर में लागू की जाएगी।

ओएनजीसी निदेशक मंडल ने त्रिपुरा में 5,050 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी के निदेशक मंडल ने कुओं की खुदाई और जमीन पर संबंधित सुविधाएं तैयार करने के लिये त्रिपुरा में 5,050 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद राज्य के क्षेत्रों से 51 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस निकालना है।

दुनिया के 12 देशों ने सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ट्रेड डील पर किए 'साइन'

12 देशों ने ट्रेस-पसिफिक पार्टनरशिप के तहत दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ट्रेड डील पर दस्तखत कर दिए।

- न्यूजीलैंड में इन सभी देशों के प्रतिनिधियों ने डील पर दस्तखत तो कर दिया, लेकिन इसे जमीं पर उतरने से पहले अभी कुछ और सालों तक कठिन समझौतों से होकर गुजरना होगा।
- इस समझौते के लिए पिछले 5 सालों से प्रयास किए जा रहे थे।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक सहयोग करेगा

विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर ओनो रूल ने कहा कि राजस्थान सरकार के साथ मिलकर विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की है।

श्री रूल ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि इस प्रोजेक्ट में पारम्परिक ऊर्जा के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर फोकस किया गया है। विश्व बैंक के अधिकारी ने देशभर में वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र के विकास तथा खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) विषय में राजस्थान के अग्रणी रहने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी।

भारत और हांगकांग ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने का फैसला किया

भारत और हांगकांग ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने का फैसला किया है।

- भारत की यात्रा पर आए हांगकांग के मुख्य कार्यकारी सीवाई लियुंग ने 04 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
- लियुंग की ब्यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है।
- इस यात्रा से भारत और हांगकांग के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन संपर्क मजबूत हो सकेंगे।
- मोदी और लियुंग ने विशेषरूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर सहमति दी।

केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना

(ओआरओपी) के कार्यान्वयन की घोषणा की

केंद्र सरकार ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। इसका लाभ 18 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों तथा युद्ध विधवाओं को मिलेगा।

- वर्तमान दर पर ओआरओपी के कार्यान्वयन खाते में वार्षिक आवर्ती वित्तीय अनुमान लगभग 7,500 करोड़ रूपए है। जेसीओ/ओआर को ओआरओपी के खाते पर कुल खर्च का 86 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान

कंपनी बनी अल्फाबेट

दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू 570 अरब डॉलर यानी करीब 38 लाख करोड़ रुपये है। जबकि एप्पल की मार्केट वैल्यू 530 अरब डॉलर यानी करीब 36 लाख करोड़ रुपये है। खास बात ये है कि करीब पांच महीने पहले अगस्त 2015 में ही अल्फाबेट कंपनी का गठन हुआ था।

भारत ने यूरोपीय आण्विक जीवविज्ञान संगठन

का सदस्य देश बनने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर

किए

भारत ने यूरोपीय आण्विक जीवविज्ञान संगठन (ईएमबीओ) का सदस्य देश बनने हेतु 4 फरवरी 2016 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके

तहत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे इस क्षेत्र में भारत और यूरोप के बीच वैज्ञानिक वार्ता और सहयोगात्मक अनुसंधान मजबूत करने में मदद मिलेगी।

- जुलाई 2015 में ईएमबीसी द्वारा सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत यूरोपीय क्षेत्र से बाहर का अब ऐसा दूसरा देश बन गया है।

LIC ने NTPC में हिस्सेदारी बढ़ाकर 12.98 फीसदी

की

सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने एनटीपीसी में 3.90 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है।

एलआईसी की एनटीपीसी में हिस्सेदारी 9.08 फीसदी से बढ़कर 12.98 फीसदी हो गई है।

SBI की नई होम लोन स्कीम, 5 साल तक नहीं

लगेगा ब्याज

युवा कस्टमर्स को लुभाने के लिए एसबीआई ने नई होम लोन स्कीम 'फ्लेक्सी पे' शुरू की है। इसमें ज्यादा लोन के साथ तीन से पांच साल तक इंस्ट्रेस्ट स्थगित रहेगा व उसके बाद भी आसान ईएमआई रहेगी। नेशनल बैंकिंग ग्रुप के एमडी रजनीश कुमार ने बताया कि इसमें कस्टमर की

मासिक आय के अनुपात में ईएमआई तय की जाएगी।

फ्लेक्सि पे होम लोन के जरिए एसबीआई युवा वर्किंग प्रफेशनल्स को टारगेट कर रहा है। इससे ये ग्राहक सामान्य होम लोन स्कीमों के मुकाबले अधिक रकम का लोन हासिल कर सकेंगे। इसमें सिर्फ ब्याज चुकाने का भी विकल्प रहेगा। इसके बाद ईएमआई चुकाने में आसानी हो सकेगी। ईएमआई भी बाद के वर्षों में बढ़ेगी ताकि आय बढ़ने के साथ कर्ज चुकाने में आसानी हो।

जनवरी में देश का स्टील प्रोडक्शन 1.5 फीसदी

घटा

जनवरी के दौरान देश के कुल स्टील प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले जनवरी में स्टील प्रोडक्शन 1.5 फीसदी घटकर 74 लाख टन रहा है।

सितंबर 2015 के बाद ये पहला मौका है जब किसी महीने में प्रोडक्शन घटा है। इससे पहले सितंबर 2015 में पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन 0.5 फीसदी घटा था।

महिन्द्रा एएमसी को म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सेबी की मंजूरी मिली

महिन्द्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है।

- महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी महिन्द्रा एएमसी को चार फरवरी को इस संबंध में बाजार नियामक की मंजूरी मिली।
- हालांकि, कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया कि वह कब तक म्यूचुअल फंड उत्पादों की पेशकश करना शुरू करेगी। वर्तमान में देश में 40 से अधिक म्यूचुअल फंड कंपनियां परिचालन कर रही हैं।

मुद्रा योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये

वितरित: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि छोटे उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक एक लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

- उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार चाहती है कि युवा रोजगार सृजन करने वाले बने न कि रोजगार तलाशने वाले।
- उन्होंने कहा कि इसीलिए मुद्रा योजना के तहत हम युवाओं को वित्त सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमने एक लाख करोड़ रुपये वितरित किये हैं। इतने कम समय में इतने लोगों को ऋण देना छोटी बात नहीं है।
- पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को

50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जा रहा है।

- उन्होंने कहा कि देश में 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयु के लोगों की है और इन युवाओं की प्रगति के लिये उद्यमशीलता को बढ़ाने की जरूरत है।

RBI ने चार NBFC कंपनियों का रजिस्ट्रेशन

किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है।

- आरबीआई ने कोलकाता की गोयल कॉमर्शियल प्रा. लि. और फर्स्ट डेब्टमैनेजमेंट लि., मुंबई की नास्टैल्जिया फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड और नारद रीयल्टर्स प्रा. लि. का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है।
- आरबीआई ने इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 2015 के नवंबर और दिसंबर महीने में कैंसिल किया।

सरकार ने 173 इस्पात उत्पादों के लिए

एमआईपी तय किया

सरकार ने घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के लिए आज 173 इस्पात उत्पादों के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) तय किया। यह एमआईपी 341 डॉलर से लेकर 752 डॉलर प्रति टन तक तय किया गया है।

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, 173 एचएस कोड्स (लौह व इस्पात उत्पादों) के लिए एमआईपी शुरू किया गया है।
- इसके अनुसार एमआईपी केवल छह महीने के लिए होगा। हालांकि यह अग्रिम प्राधिकृति योजना के तहत आयात तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस उद्योग में इस्तेमाल होने वाली उच्च श्रेणी की पाइपों पर लागू नहीं होगा। तय न्यूनतम आयात मूल्य से कम कीमत पर आयात की अनुमति नहीं होगी।

बांग्लादेश तक रेल के लिए 580 करोड दिए

भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेल परियोजना को 6 साल पहले अंतिम रूप देने के बाद भारत सरकार ने इस मद में 580 करोड रुपये जारी किए।

- अगरतला-अखौरा रेल परियोजना से उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व की ओर देखो नीति को बढ़ावा देगी। मोदी ने पिछले साल जून में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना के साथ 1000 करोड रुपये से अधिक की रेल परियोजना पर चर्चा की थी। भौमिक ने बताया कि बांग्लादेश वाले हिस्से की

परियोजना को विदेश मंत्रालय धन मुहैया कराएगा, जबकि भारतीय हिस्से को डोनर (डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन) मंत्रालय धन देगा।

- इस नए रेलमार्ग के बनने के बाद अगरतला से कोलकाता के बीच की दूरी 1,650 किलोमीटर से घटकर केवल 550 किलोमीटर हो जाएगी।
- इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच चार रेल लिंक हैं। ये रेल लाइनें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने यूएसटीडीए के साथ समझौता किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम को स्मार्ट सिटी में बदलने हेतु अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है।

- इस समझौते पर आन्ध्र प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान सचिव तथा अमेरिकी एजेंसी के कंट्री मैनेजर ने हस्ताक्षर किये।

भारत- स्वीडन के बीच रेलवे में तकनीकी सहयोग का करार

भारत और स्वीडन के बीच भारतीय रेलवे के तकनीकी उन्नयन के लिये सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

- रेलवे बोर्ड में सलाहकार (आधारभूत ढाँचा) गिरीश पिल्लै और स्वीडन सरकार के उद्यमिता एवं नवान्वेषण मंत्रालय के

स्टेट सेक्रेटरी ऑस्कर स्टेन्स्ट्राम ने इस करार पर हस्ताक्षर किये।

केंद्र सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए पहली बार राष्ट्रीय नीति जारी की

सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए पहली बार राष्ट्रीय नीति जारी की है।

- कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए जारी राष्ट्रीय नीति में वर्ष 2025 तक अतिरिक्त दो करोड़ दस लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है।
- केंद्र सरकार की ओर से भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने मुंबई में आयोजित 'मेक इन इंडिया' समारोह में इसकी घोषणा की है।

हैदराबाद में खुलेगा एप्पल का डेवलपमेंट सेंटर

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी की दिग्गज कंपनियों के बाद अब एप्पल भी हैदराबाद में तकनीकी विकास केंद्र खोलने जा रहा है।

- वेबसाइट जेडडीनेट की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में तिथमैन स्पेयर्स वेवरॉक फैसिलिटी में एप्पल का यह तकनीकी विकास केंद्र 2 लाख 50 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस सेंटर के निर्माण के बाद यहां 4,500

नौकरियां निकलेंगी। उम्मीद की जा रही है कि एप्पल जून में यहां पर अपना इन्नोवेशन सेंटर खोलेगी और इसके बाद साल के अंत में पूरी तरह केंद्र शुरू हो जाएगा।

लॉन्च हुआ महज 251 रुपये में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्ट फोन

स्मार्ट फोन की दुनिया में नई कंपनी रिंगिंग बेलस भारत का सबसे सस्ता स्मार्ट फोन फ्रीडम 251 लेकर आई है।

- फ्रीडम 251 भारत का सबसे सस्ता स्मार्ट फोन है। इसके नाम से साफ है ये सबसे सस्ता 3G स्मार्ट फोन है जिसकी कीमत महज 251 रुपये है। नोएडा की रिंगिंग बेल कंपनी ने इस स्मार्ट फोन को बनाया है।
- एंड्रॉयड 5.1 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले इस स्मार्ट फोन का डिस्प्ले चार इंच का होगा। इसमें 3.2 मेगा पिक्सेल रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 0.3 मेगा पिक्सेल का है।
- ये स्मार्ट फोन 18 फरवरी सुबह 6 बजे से 21 फरवरी रात 8 बजे तक बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

एसबीआई ने जापान डेस्क शुरू किया

देश में करीब 30 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के मकसद से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपना जापान

डेस्क शुरू किया, जो जापानी कंपनियों के लिए एकल खिडकी की तरह से काम करेगा।

- जापान डेस्क जापानी निवेशकों और भारतीय जरूरतों के बीच सेतु का काम करेगा।

भेल ने पंजाब में 270 मेगावाट जीवी के पावर प्लांट आरंभ किया

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (भेल) ने 18 फरवरी 2016 को पंजाब के तरन तारन जिले में जीवी के पावर एंड इन्फ्रा की गोइंडवाल साहिब ताप बिजली परियोजना की 270 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाई को आरंभ किया।

- इससे पहले कंपनी 210/250 मेगावाट के सेट सप्लाई कर रही थी जिसे अब बढ़ाकर 270 मेगावाट किया गया। पंजाब में सप्लाई किये गये 210-270 मेगावाट के सभी सेट भेल द्वारा दिए गये थे। इनमें 210 मेगावाट की 6 यूनिट रोपड़, 210 और 250 मेगावाट की 2-2 यूनिट भटिंडा में भेजी गयीं।
- भेल ने इससे पहले उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 82.5 मेगावाट के चार हाइड्रो सेट दिए थे।

यस बैंक ने ध्वनि आधारित भुगतान सेवा के लिए अल्ट्राकैश के साथ की भागीदारी

निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने ध्वनि तरंगों के जरिये भुगतान प्रक्रिया पेश करने के लिए अल्ट्राकैश टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी की है।

- अल्ट्राकैश एक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है, जिसमें विशिष्ट उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों के उपयोग के जरिये एक से दूसरे उपकरण में भुगतान आंकड़ों का हस्तांतरण होता है।
- अल्ट्राकैश की ध्वनि तरंग प्रौद्योगिकी से इंटरनेट संपर्क के बिना ही बैंक खाते अथवा कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल भुगतान में मदद मिलेगी।
- यस बैंक ने एक बयान में कहा, इस भागीदारी से अल्ट्राकैश को यस बैंक के मोबाइल वॉलेट जारी करने में मदद मिलेगी।

सूअर पालन के लिए बीपीए से समझौता करेगा

पंजाब

पंजाब सरकार प्रदेश में नवीनतम और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सूअर पालन को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही ब्रिटिश पिग एसोसिएशन (बीपीए) के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगी।

- मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि बीपीए के साथ प्रदेश पशुपालन विभाग का समझौता व्यथित किसान की ठहराव वाली आर्थिक स्थिति को निश्चित तौर पर बदलेगा जो पारंपरिक खेती के कम

आय प्राप्त होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

- सूअर पालन प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कृषि विविधीकरण कार्यक्रम के लिए नए आयाम उपस्थित करेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक सहयोग

करेगा

विश्व बैंक राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों पर राज्य सरकार का सहयोग करेगा।

- विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर श्री ओनो रूल ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में यह प्रस्ताव रखा।
- श्री रूल ने कहा कि विश्व बैंक ने राज्य सरकार के साथ मिलकर विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिये एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में पारम्परिक ऊर्जा के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर फोकस किया गया है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान ने स्मार्ट सिटी

योजना लागू करने के लिए एसपीवी का गठन

मध्य प्रदेश और राजस्थान ने स्मार्ट सिटी योजना लागू करने में स्पेशल पर्पज व्हेकिल्स यानि एसपीवी गठित की हैं। ये योजना उन शहरों

में लागू होगी, जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में पहले चरण के तहत चुना गया है।

- मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर और भोपाल तथा राजस्थान में जयपुर और उदयपुर में एसपीवी का गठन किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि बाकी 15 शहरों के लिए एसपीवी का गठन अगले दो सप्ताह में कर लिया जाएगा।
- मंत्रालय एसपीवीज के गठन के बाद ही इन 20 शहरों में प्रत्येक के लिए दो सौ करोड़ रुपये जारी करेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एसपीवी में राज्यों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की 50-50 प्रतिशत की भागीदारी होगी। निजी भागीदारी की भी अनुमति होगी, लेकिन इन पर प्रबंध नियंत्रण सरकार के पास रहेगा।

स्वच्छ हिमाचल पढाई भी, सफाई भी अभियान शुरू किया

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने धर्मशाला में 'स्वच्छ हिमाचल - पढाई भी, सफाई भी' अभियान शुरू किया।

- इस अद्वितीय अभियान के साथ, एचपीसीए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान की दिशा में कार्य करने वाला देश का पहला क्रिकेट एसोसिएशन बन गया।

- अभियान का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य और हिमालयी राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को शामिल करना है। इसका उद्देश्य भारत के साफ और हरित राज्य के रूप में हिमाचल की सुंदरता को प्रदर्शित करना भी है।
- इस के तहत, क्रिकेट के खेल को अभियान के साथ लिंक किया जाएगा और युवाओं को स्वच्छ कप्तान और शिक्षकों को कोच के रूप में जाना जाएगा।

भारतीय डाक के बैंक प्रस्ताव को हरी झंडी

सार्वजनिक निवेश बोर्ड :पीआईबी: ने भारतीय डाक के 800 करोड़ रुपये के भुगतान बैंक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए एक महीने के भीतर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत पीआईबी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करता है।

डाक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने से कहा, "पीआईबी की 19 जनवरी को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब पीआईबी की सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।" भारतीय डाक, भुगतान बैंक की स्थापना के लिए विभाग सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।

भारत दौरे पर नेपाली PM, भारत और नेपाल के बीच हुए 9 समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के. पी. शर्मा ओली ने मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता का नेतृत्व किया। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की छह दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच 9 महत्वपूर्ण समझौते किए।

- भारत और नेपाल के बीच कुल 9 करार हुए। इसके तहत दोनों देशों के बीच के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और कई हाईवे बनाए जाएंगे। अगले 2 साल में भारत नेपाल को 80 मेगावाट बिजली देगा। नेपाल ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भी करार हुए हैं।
- पीएम मोदी और ओली ने मुज्जफरपुर-ढाल केबार पावर ट्रांसमिशन लाइन की भी बटन दबाकर शुरुआत की।

फेसबुक ने भारत में बंद की फ्री बेसिक्स सर्विस

फेसबुक ने भारत में अपने विवादित फ्री बेसिक्स प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। फेसबुक ने टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की तरफ से नेटन्यूट्रैलिटी के हक में फैसला देने के बाद यह कदम उठाया है।

- ट्राई ने अपने फैसले में भारत में अलग-अलग इंटरनेट कंटेंट के लिए अलग-अलग रेट लगाने पर रोक लगा दी है। भारत में बंद होने के बाद भी फ्री बेसिक्स प्रोजेक्ट दुनिया के करीब 30 देशों में जारी रहेगा।
- ट्राई ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि केवल इमरजेंसी सर्विस या पब्लिक सर्विस के लिए डेटा टैरिफ में छूट दी जा सकती है।

अमरीकी कंपनी हेल्थ केयर को खरीदेगी विप्रो

विप्रो ने अमरीका की कंपनी हेल्थ प्लान सर्विसेज को खरीदने का एलान किया है। यह डील हेल्थ प्लान का लगभग 3150 करोड़ रुपए का विप्रो द्वारा अधिग्रहण होगा।

- जिस हेल्थ प्लान सर्विसेज आईटी कंपनी को विप्रो खरीदने जा रही है वह अमरीकी हेल्थ केयर मार्केट में बिजनेस प्रॉसेज सर्विसेज मुहैया कराती है।
- विप्रो अमेरिकी कंपनी हेल्थ प्लान सर्विसेज का इस अधिग्रहण से भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी का अमेरिकी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में स्थिति मजबूत होगी। अमरीका की यह कंपनी एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, जो पूरी तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। विप्रो ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अमेजन वैस्टलैण्ड में निवेश करेगी

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने ई टाटा समूह की कंपनी वैस्टलैण्ड में निवेश करने की घोषणा की है।

- इस निवेश से कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ने की संभावना है।
- वैस्टलैण्ड ने अपनी किताबें बेचने हेतु अमेजन के साथ 2 महिने की डील भी की है।

बैंक ऑफ बड़ौदा को तीसरी तिमाही में 3,342 करोड़ रुपये का घाटा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर फंसे कर्ज के बढ़ते बोझ के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा को वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 3,342.04 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। देश में किसी भी बैंक को तिमाही के दौरान हुआ यह सबसे बड़ा घाटा है।

- आलोच्य तिमाही में बैंक का कुल प्रावधान 1,262.25 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,164.55 करोड़ रुपये हो गया। बैंक की सकल गैर-निष्पादित राशि एनपीए अनुपात भी इस दौरान एक साल पहले के 3.85 प्रतिशत से बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गया जबकि नेट एनपीए अनुपात इस दौरान 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 5.67 प्रतिशत हो गया।

जयललिता ने 1002 करोड़ की परियोजनाएँ लांच की

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य में 1002.02 करोड़ की योजनाओं का अनावरण किया है।

- इनमें ब्रिज निर्माण व भवन निर्माण प्रमुख है।
- पांच ब्रिज व रेलवे ओवर ब्रिज की आधारशिला भी रखी जा चुकी है।

आरबीआई ने प्रमुख दरें अपरिवर्तित रखी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति समीक्षा जारी कर दी। आरबीआई ने छठी द्विमासिक नीतिगत समीक्षा में प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। इसके अनुसार, नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए 7.75 प्रतिशत बरकरार रखा है। रेपो दर वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतें पूरी करने के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। रिवर्स रेपो दर को 6.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। रिवर्स रेपो दर वह दर है, जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी जमा राशि पर देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.75 प्रतिशत बरकरार रखी गई हैं। इन मुख्य दरों को यथावत रखे जाने का अर्थ यह होता है कि घर, वाहन और अन्य कर्जों पर ईएमआई किश्तों में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

एचडीएफसी बैंक एटीएम के जरीये देगा लोन

एचडीएफसी बैंक अब गैर ग्राहकों एटीएम के जरीये लोन देगा। बैंक के कुल एटीएम की संख्या इसकी शाखाओं से दुगुनी है।

भारत- पाकिस्तान रेल सम्पर्क समझौता तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया

- भारत एवं पाकिस्तान ने अपने आपसी रेल सम्पर्क समझौता को जनवरी 2016 में तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनल के जरिये आपसी सहमति से अपने रेल सम्पर्क समझौते को तीन वर्षों के लिए बढ़ाया।
- भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस समझौते को 19 जनवरी 2016 से 18 जनवरी 2019 तक के लिए बढ़ाया गया।

पूँजीगत वस्तुओं के शुल्कमुक्त आयात पर प्रतिबंध

- सरकार ने ई.पी.सी.जी. योजना के तहत बिजली उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के लिए पूँजीगत वस्तुओं के शुल्कमुक्त आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इस फैसले का मकसद बिजली उपकरणों के विनिर्माण तथा घरेलू पूँजीगत सामान क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। इससे कुल अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संशोधन करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) ने अपने आदेश में कहा है कि ई.पी.सी.जी. योजना के तहत बिजली उत्पादन एवं पारेषण के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसमें कैप्टिव बिजली संयंत्र यानी खुद के इस्तेमाल के बिजलीघर और किसी भी प्रकार के पावर जेनरेटर सेट शामिल हैं।

नियुक्तियां

जस्टिस माहेश्वरी मेघालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

लाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जोधपुर निवासी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस माहेश्वरी राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कोटे से वर्ष 2004 में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वर्ष 2014 तक उन्होंने मुख्यपीठ जोधपुर में सुनवाई की।

उदय कुमार एमएसईआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त

मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआई) उदय कुमार को प्रबंध

निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर नियुक्त किया है।

उदय कुमार की नियुक्ति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित की गयी। इस पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का चयन शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया के बाद चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से होता है। इसके बाद सेबी मंजूरी प्रदान करती है।

भारत में निसान के ब्रांड एंबेसडर होंगे रोहित शर्मा

जापान के कार निर्माता निसान ने आईसीसी के साथ अपनी साझेदारी के तहत आठ मार्च से शुरू हो रहे विश्व टी20 के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, वेस्टइंडीज के आलराउंडर आंद्रे रसेल और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सूजी बेट्स को अपना वैश्विक एंबेसडर बनाया है।

निसान के कारपोरेट उपाध्यक्ष और मार्केटिंग एवं ब्रांड रणनीति के वैश्विक प्रमुख रोएल डि ब्राइस ने कहा कि निसान को इन शानदार खिलाड़ियों का निसान टीम में एंबेसडर के रूप में स्वागत करने की खुशी है।

डा. केतन शुक्ल बोट्सवाना गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त

डा. केतन शुक्ल (आईएफएस : 1986), जो इस समय मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, को बोट्सवाना गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अपना पदभार शीघ्र ग्रहण कर लेंगे।

राहुल द्रविड आईसीसी की नव नियुक्त भ्रष्टाचार रोधी निगरानी ग्रुप में शामिल

- पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारत के अंडर-19 टीम के कोच राहुल द्रविड को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। द्रविड को आईसीसी की नव नियुक्त भ्रष्टाचार रोधी निगरानी ग्रुप में शामिल किया गया है। उनका चयन आईसीसी की इंटीग्रीटी वर्किंग पार्टी की सिफारिशों के बाद किया गया।
- पूर्व भारतीय कप्तान द्रविड इस समय भारत के अंडर-19 टीम के साथ बांग्लादेश में हैं। जहां भारत की अंडर-19 विश्वकप में उनकी निगरानी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के अधिनियम 233 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

अरुणा सेठी भारतीय लागत लेखा सेवा की पहली

महिला प्रमुख नियुक्त

मुख्य सलाहकार (लागत) श्रीमती अरुणा सेठी (आईसीओएस 1985) ने 1 फरवरी, 2016 को प्रमुख के तौर पर भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएस) का प्रभार संभाल लिया।

- श्रीमती सेठी पहली महिला आईसीओएस अधिकारी हैं, जिन्होंने यह प्रतिष्ठा हासिल की है।
- वह इससे पहले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अनेक महत्वपूर्ण पद संभाल चुकी हैं। इनमें उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कंपनी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने जनरल राजेन्द्र छेत्री को भारतीय

सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की

भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष प्रख्यात त्रिसहकति-पट्टा जनरल राजेन्द्र छेत्री को उनकी सराहनीय सैन्य क्षमता एवं भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है।

इजरायल-सीरिया संघर्ष विराम की निगरानी

करेंगे मेनन

भारतीय सेना के मेजर जनरल जयशंकर मेनन को संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह बल इजरायल और सीरिया के बीच संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए गोलान में तैनात है।

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने मेजर जनरल मेनन को यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स (यूएनडीओएफ) का प्रमुख नामित किया है।
- वह नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल पूर्ण चंद्र थापा की जगह लेंगे। थापा का सात फरवरी, 2016 को कार्यभार पूरा हो रहा है।

सामरिया बने भविष्य निधि के आयुक्त

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव हीरा लाल सामरिया को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आयुक्त बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री सामरिया को भविष्य निधि संगठन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह 1985 बैच के आईएस अधिकारी है। उनकी नियुक्ति तीन महीने या इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल की संपत्ति बेचने के

लिए लोढ़ा समिति को नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने पर्स एगोटेक कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) की संपत्ति बेचने तथा

निवेशकों को 49 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा समिति को नियुक्त किया है।

- निवेशकों ने इस फर्म में सामूहिक निवेश योजना के तहत निवेश किया था जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गैरकानूनी ठहराया है।

आर के पचौरी को टेरी का उपाध्यक्ष बनाया गया

अपनी ही सहयोगी महिला से यौन शोषण करने के आरोपों में घिरे द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (ऊर्जा व संसाधन संस्थान-टेरी) के महानिदेशक रह चुके आर के पचौरी को प्रोन्नति देते हुए संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

- सूत्रों के अनुसार यह पद विशेष तौर पर उन्हीं के लिए सृजित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन का नियंत्रण उनके ही हाथ में रहे।
- लगभग पैंतीस साल तक टेरी के मुखिया रह चुके पचौरी को पिछले साल जुलाई में महानिदेशक पद से हटा दिया गया था। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने बाद में संस्थान से त्यागपत्र दे दिया था।

बृजभूषण शरण सिंह दक्षिण एशिया कुश्ती

महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दक्षिण एशिया कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

- बृजभूषण के अलावा पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अज़गर, श्रीलंका के यूएच नेविले तथा नेपाल के राज मोहम्मद अंसारी को उपाध्यक्ष जबकि बंगलादेश के तबीऊर रहमान को एसएडब्ल्यूएफ का महासचिव चुन लिया गया है।

विनोद राय होंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के पहले प्रमुख

पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

यह ब्यूरो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों पर सुझाव देगा और अन्य मुद्दों के साथ-साथ बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या के निदान के बारे में भी सलाह देगा।

स्विटजरलैंड के गियानी इन्फैंटिनो फीफा के नये अध्यक्ष नियुक्त

स्विटजरलैंड के गियानी इन्फैंटिनो दूसरे दौर के मतदान में जीतने के बाद फीफा के नये अध्यक्ष बन गए हैं।

- कुल 207 वैध मतों में से इन्फैंटिनो को 115 मत मिले। उन्होंने बहरीन के शेख सलमान को हराया।

**योचिरो यूनो भारत में होंडा कार के सीईओ और
अध्यक्ष नियुक्त**

जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटर ने योचिरो यूनो को भारत में कम्पनी के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।

- यूनो 1 अप्रैल 2016 को कत्सुशी इनोए का स्थान लेंगे। इनोए होंडा मोटर कम्पनी के संचालन अधिकारी और यूरोप क्षेत्र के लिए मुख्य संचालन अधिकारी नामित किए गए हैं।

**धीरेंद्र हीरालाल वाघेला बंबई उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त**

न्यायाधीश धीरेंद्र हीरालाल वाघेला को बंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

- वर्तमान में हीरालाल वाघेला उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। मुंबई में 16 फरवरी 2016 को वह पदभार ग्रहण करेंगे।
- वह मोहित एस शाह का स्थान लेंगे जो सितम्बर, 2015 को पद से सेवानिवृत्ति हुए थे।

**श्री आर के वर्मा ने रेलवे बोर्ड के नये सचिव का
पदभार संभाला**

- भारतीय अभियांत्रिकी रेल सेवा के 1980 बैच के अधिकारी श्री आर.के.वर्मा ने 9 फरवरी 2016 से रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाल लिया है।
- सचिव पदभार संभालने से पूर्व, वह रेल राज्य मंत्री के सलाहकार (लोक शिकायत) के तौर पर सेवारत थे।
- वाराणसी के आईआईटी (बीएचयू) से बी.टैक (सिविल इंजीनियरिंग) के बाद आईआईटी दिल्ली से एम.टैक (ढांचागत अभियांत्रिकी) की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 10 फरवरी, 1982 को भारतीय रेल सेवा में शामिल हुए। उन्होंने रेलवे में दक्षिण, पूर्वोत्तर फ्रंटियर पूर्वी और पश्चिमी सहित पुणे में भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हैवी हॉल ऑपरेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

**हरिंदर सिद्धू भारत में आस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त
नियुक्त**

- आस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की महिला राजनयिक हरिंदर सिद्धू को भारत में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप द्वारा की गई है।

- वह पत्रिक सकलिंग का स्थान लेंगी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2013 में की गई थी। इस पद को धारण करने वाली हरिंदर सिद्ध दूसरी पीओआई और पहली भारतीय मूल की महिला हैं।

इजराइल की तमर हाहन संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र की निदेशक नियुक्त

- तमर हाहन ने ब्यूनस आयर्स स्थित संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र (यूएनआईसी) के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा नियुक्त किया गया है।
- इससे पहले हाहन लैटिन अमेरिका एवं पनामा में वर्ष 2013 से संसाधन जुटाने के लिए एवं क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फण्ड तैयार करने हेतु सलाहकार पद पर कार्यरत थीं।
- यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र के उन देशों में प्रमुख सूचना केंद्र हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में लोगों को संगठन के कार्यों से अवगत कराना तथा उनके बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रति जागरूकता फैलाना है।

केंद्र सरकार ने तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की

- केंद्र सरकार ने तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की औपचारिक तौर पर घोषणा

कर दी है। सरकार ने अमितव भट्टाचार्य, बिमल जुल्का और दिव्य प्रकाश सिन्हा को सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए जाने का ऐलान किया है।

केएन व्यास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त

- प्रसिद्ध वैज्ञानिक केएन व्यास को 23 फरवरी 2016 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) का निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने डॉ शेखर बासु के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है। बासु अभी केंद्रीय परमाणु उर्जा विभाग में सचिव पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे रिएक्टर परियोजनाओं में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत थे।

राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष नियुक्त

- केंद्र सरकार ने राजेंद्र सिंह को भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) का महानिदेशक नियुक्त किया है। वे गैर नेवी क्षेत्र से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा चुकी है।

- अभी तक तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर नौसेना के थ्री स्टार अधिकारी की ही नियुक्ति होती रही है।

न्यायमूर्ति शुभो कमल मुखर्जी ने कर्नाटक उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ

ग्रहण की

- न्यायमूर्ति शुभो कमल मुखर्जी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल वजूभाई आर वाला ने राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति मुखर्जी को शपथ दिलाई।
- 10 अक्टूबर 1955 को जन्मे न्यायमूर्ति मुखर्जी ने एमए एलएलबी की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की।

श्री श्रीनिवासन बनेंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में

पहले भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश

- भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश श्री श्रीनिवासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामांकित किया जायेगा, जिससे वह भारतीय समुदाय से यह पद पाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे।
- ओबामा ने श्रीनिवासन को पहली बार पद के लिए 2012 में नामांकित किया था और सीनेट ने मई 2013 में उनके नाम की पुष्टि की।

- यहां तक कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन टेडकूज और मार्को रुबियो ने भी उनका समर्थन किया था। वह ओबामा के प्रधान उपसॉलिसिटर जनरल थे। उन्होंने रक्षा विवाह कानून के खिलाफ सफल लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

योगेश कुमार त्यागी बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के

नये कुलपति

- साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के विधि अध्ययन संकाय के डीन योगेश कुमार त्यागी दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नये कुलपति नियुक्त किए गए। यह पद उनके पूर्ववर्ती दिनेश सिंह के कार्यकाल में विवादों के घेरे में रहा था।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने त्यागी को इस पद पर पांच साल के लिए नियुक्त किया है। उससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चार व्यक्तियों के पैनल से उनका नाम चुना जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर हैं।
- सिंह के मुक्त हो जाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति तीन महीने से लंबित है। सिंह 28 अक्टूबर को इस पद से मुक्त हुए थे और सुधीश पचौरी फिलहाल कार्यकारी कुलपति थे।

**सेबी प्रमुख यूके सिन्हा का कार्यकाल एक साल
और बढ़ा**

- यूके सिन्हा एक मार्च 2017 तक पूंजी बाजार नियामक सेबी के प्रमुख बने रहेंगे। सरकार ने उनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया है। यूपीए के कार्यकाल में उन्हें तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था।
- फिर उन्हें दो साल का विस्तार दिया गया, जिसकी अवधि 17 मार्च को खत्म हो रही है। सेबी प्रमुख के पद पर 65 साल की उम्र तक रहा जा सकता है। वे अगले साल मार्च में 65 साल के हो जाएंगे।

**आईएमएफ की कमान एक बार फिर संभालेंगी
क्रिस्टीन लेगार्ड**

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की कमान एक बार फिर क्रिस्टीन लेगार्ड संभालेंगी। आईएमएफ ने अपने प्रबंध निदेशक के तौर पर दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए एक बार फिर लेगार्ड को चुन लिया है, वे इस वक्त भी इसी पद पर हैं।
- आईएमएफ प्रमुख के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल पांच जून से शुरू होगा। आईएमएफ ने कहा कि यह फैसला उसके कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया है।
- इस ऐलान के बाद लेगार्ड ने एक बयान में कहा कि मैं दूसरी बार आईएमएफ प्रबंध

निदेशक के तौर पर काम करने का अवसर मिलने पर खुश हूं। मैं आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड और 188 सदस्य देशों के मुझ पर एक बार फिर किए गए भरोसे और निरंतर सहयोग की प्रशंसा करती हूं।

**केतन शुक्ला बोत्सवाना में भारत के
उच्चायुक्त बने**

1986 बैच के आईएफएस अफसर केतन शुक्ला को बोत्सवाना गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।

- वे हेमलता सी. भागिरथ का स्थान लेंगे।

**भारतीय वकील देविन्दर सिंह आईसीसीसी के
उपाध्यक्ष बने**

- भारतीय मूल के वकील देविन्दर सिंह को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य आयोग चैंबर का उपाध्यक्ष चुना गया है।
- 58 वर्ष के देविन्दर सिंह सिंगापुर में वकील हैं।
- वर्तमान में वे लॉ कंपनी ड्र्यू एंड नेपियर के सीईओ हैं।

अशोक चावला बने टेरी के नये अध्यक्ष

- यौन उत्पीड़न के नये मामले में फंसने के बाद एक बार फिर विवादों में घिरे द

एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर के पचौरी को छुट्टी पर भेज दिया गया है और पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला को संस्थान के संचालन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- चावला प्रोफेसर बी वी श्रीकांतन का स्थान लेंगे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
- पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को देखते हुये उन्हें टेरी, टेरी संचालन परिषद तथा टेरी विश्वविद्यालय से अनिश्चितकाल के लिये छुट्टी पर भेज दिया गया है।
- संस्थान ने आज एक बयान में बताया कि टेरी के संचालन परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। टेरी के नये महानिदेशक अजय माथुर को संचालन परिषद का सदस्य बनाया गया है और उन्हें सभी कार्यकारी अधिकार दिये गये हैं।

मेजर जनरल मेनन संयुक्त राष्ट्र मुक्ति पर्यवेक्षक सेना के अध्यक्ष नियुक्त

- भारत के मेजर जनरल जय शंकर मेनन को संयुक्त राष्ट्र के मुक्ति पर्यवेक्षक सेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

- उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा 2 फरवरी 2016 को नियुक्त किया गया है।
- उन्हें नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल पूरन चन्द्र थापा के स्थान पर नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 7 फरवरी 2016 को समाप्त हो रहा है।

SSB की चीफ बर्नी अर्चना रामसुंदरम, मिला सरहद का जिम्मा

- तमिलनाडु कैंडर की IPS अधिकारी अर्चना रामसुंदरम सशस्त्र सीमा बल (SSB) की चीफ बनाई गई हैं। देश में किसी सुरक्षाबल की वह पहली महिला चीफ हैं। वह किसी अर्द्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 58 वर्षीय अर्चना रामसुंदरम फिलहाल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की निदेशक हैं। उन्हें अगले साल 30 सितंबर को उनके सेवानिवृत्त होने तक एसएसबी प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। SSB पर नेपाल और भूटान से लगे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

कमलेश कुमार पांडेय सीसीपीडी नियुक्त

- कमलेश कुमार पांडेय को तीन साल की अवधि के लिए विकलांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) नियुक्त किया गया है।
- एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ 'सक्षम' से जुड़े हुए पांडेय की नियुक्ति की गयी।
- पांडेय झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए काम कर रही 'सेवा भारती' जैसी कई सामाजिक संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं।

जिसमें आठ देश के 2500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

- यह खिलाड़ी 23 खेलों की 228 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में 228 पदक दांव पर हैं। इन 23 खेलों में से 16 गुवाहाटी और 7 शिलांग में खेले जाएंगे, जबकि इसका समापन समारोह भी 16 फरवरी शिलांग में होगा।
- देशों के नाम : अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका

सुलिवान ने जीता वेल्श ओपन खिताब

- रानी ओ सुलिवान ने रविवार को कार्डिफ में नील रॉबर्टसन को 9-5 से हराकर चौथा वेल्श ओपन खिताब जीता। आस्ट्रेलिया के रॉबर्टसन ने हालांकि, पहले सत्र में 5-2 से बढ़त बना ली थी, लेकिन 40 वर्षीय ओ सुलिवान ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वापसी करते हुए जीत हासिल की और खिताब अपने नाम कर लिया।
- इस खिताब को हासिल करने के बाद अब ओ सुलिवान विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

खेल

12वें दक्षिण एशियाई खेल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया

- गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ असम के सीएम तरुण गोगोई भी मौजूद थे।
- यह दक्षिण एशियाई खेल 5 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।

इंडोनेशिया एवं चीन ने एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता

- फरवरी 2016 में हैदराबाद में आयोजित 'एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप-

2016' में इंडोनेशिया एवं चीन ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता।

- पुरुष वर्ग में इंडोनेशिया ने जापान को 3-2 से, जबकि महिलाओं के वर्ग में चीन ने जापान को इतने ही अंतर से हराया।
- जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा ने चीन की शिजियान वांग को 17-21, 21-16, 21-15 से शिकस्त देकर टीम को दमदार शुरुआत दिलाई।

गुजरात लॉयंस के नाम से जानी जाएगी टीम

राजकोट, लोको हुआ जारी

- 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल 9 में राजस्थान रॉयल की जगह लेने वाली राजकोट को नई फ्रेंचाइजी टीम घोषित किया गया। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के मालिक केशव बंसल ने टीम का नाम, लोको, टीम के कप्तान और टीम के कोच का नाम सार्वजनिक किया।
- सुरेश रैना की कप्तानी वाली गुजरात लॉयंस के लिए ब्रैंड हॉज को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। रैना के अलावा रविन्द्र जडेजा, इवेन ब्रावो और जेम्स फॉल्कनर जैसे कई बेहतरीन खिलाड़ी टीम में शामिल हैं।

जापान का शहर फुकोका, वर्ष 2021 की वर्ल्ड

एक्वेटिक चैम्पियनशिप का आयोजक होगा

- अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ (फिना) ने 31 जनवरी 2016 को जापान के शहर फुकोका को वर्ल्ड एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2021 की मेजबानी सौंपी।
- जबकि कतरी की राजधानी दोहा को वर्ष 2023 की वर्ल्ड एक्वेटिक चैम्पियनशिप की मेजबानी दी गई है।
- यह निर्णय बुडापेस्ट, हंगरी में फिना की कार्यकारी समिति ने वोट के बाद लिया।

श्रीकांत ने जीता सैयद मोदी ग्रांप्री गोल्ड खिताब

- भारत के शीर्ष पुरुष बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत ने सैयद मोदी ग्रांप्री गोल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली। सैयद मोदी चैम्पियनशिप में श्रीकांत की यह पहली खिताबी जीत है।
- पिछले दो बार जीत से महरूम रहने के बाद श्रीकांत ने तीसरी बार में खिताब अपने नाम करने में कोई गलती नहीं की। श्रीकांत ने युञ्जिअंग को 21-13, 14-21, 21-14 से मात दी।

आदित्य मेहता, वर्ष 2016 की राष्ट्रीय स्नूकर

चैम्पियनशिप के विजेता बने

- मुंबई के आदित्य मेहता 31 जनवरी 2016 को वर्ष 2016 की राष्ट्रीय स्नूकर चैम्पियनशिप के पुरुष वर्ग के विजेता बने।
- जबकि महिला वर्ग में यह खिताब कर्नाटका की विद्या पिल्लई ने जीता।

- इस प्रतियोगिता का आयोजन इन्दौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में किया गया था।

पिटरो फिट्टीपल्दी ने 2015-16 एमआरएफ चैलेंज फॉर्मूला 2000 जीती

- ब्राजील के ड्राईवर पिटरो फिट्टीपल्दी ने 31 जनवरी को मद्रास रेसिंग ट्रैक पर आयोजित 2015-16 एमआरएफ चैलेंज फॉर्मूला 2000 जीत ली।
- उन्होंने चार में से दो रेस जीती जिससे उन्हें जीत के लिये जरूरी अंक हासिल हो गये।

पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह पर लगा तीन महीने का बैन

- पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह को पिछले साल डोप टेस्ट में फेल रहने पर गलती स्वीकार करने के बाद तीन महीने के लिए बैन कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह जानकारी दी।
- विज्ञप्ति के अनुसार, “शाह ने 12 नवंबर 2015 को यूएई के अबु धाबी में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे मैच समाप्त होने के बाद आईसीसी के प्रतियोगिता के दौरान टेस्ट प्रोग्राम के तहत पेशाब नमूना मुहैया कराया था।”
- आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा, “आईसीसीडोपिंग रोधी संहिता के नियम

2.1 के उल्लंघन का दोष स्वीकार करने के बाद शाह को क्रिकेट से जुड़ी सभी गतिविधियों से तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है।”

- ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 55 रनों से हराकर सोमवार को न्यूजीलैंड ने चैपल-हैडली ट्रॉफी पर 2-1 से कब्जा कर लिया।
- इसके साथ ही न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का वनडे करियर भी समाप्त हो गया।
- भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बावजूद अंतिम वनडे में मिली हार के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोच डेरेन लेहमैन की गैर मौजूदगी में लगातार पांचवा मैच हार चुकी है।

ब्रेंडन मैकुलम ने वनडे से लिया सन्यास

- न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने शान से वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा। उन्होंने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैमिल्टन में अपने आखिरी वनडे मैच में केवल 27 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्कों की मदद से 47 रन बनाए।
- न्यूजीलैंड के विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान मैकुलम ने अपने वनडे करियर में 260 मैच खेले। उन्होंने 228 पारियों में 166 रनों के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6,083 रन बनाए। इसमें उनके पांच शतक और 32 अर्धशतक भी शामिल हैं।

उन्होंने वनडे करियर में 200 छक्के लगाए। इसके अलावा उन्होंने 262 कैच और 15 स्टंप भी किए।

न्यूजीलैंड ने चैपल हैडली ट्रॉफी जीती

- ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 55 रनों से हराकर न्यूजीलैंड ने चैपल-हैडली ट्रॉफी पर 2-1 से कब्जा कर लिया।
- इसके साथ ही न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकलम का वनडे करियर भी समाप्त हो गया।
- भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बावजूद अंतिम वनडे में मिली हार के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोच डेरेन लेहमैन की गैर मौजूदगी में लगातार पांचवा मैच हार चुकी है।

फाइनल में टीम इंडिया को 5 विकेट से हराकर

वेस्टइंडीज ने पहली बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप

- वेस्टइंडीज ने शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता।
- यह 11वां अंडर-19 विश्व कप था तथा बांग्लादेश में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप था।

सानिया-हिंजिस ने जीता 13वां खिताब

- भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी स्विस साथी मार्टिना हिंजिस ने रविवार को सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी के युगल खिताब पर कब्जा कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ खेलते हुए लगातार 40वीं जीत हासिल की है।
- सानिया और हिंजिस ने फाइनल मैच में वेराडुशेविना और बारबोरा क्रेसिकोवा को 6-3, 6-1 से हराया।
- यह मैच एक घंटे से कुछ ही समय अधिक चला। इस साल यह सानिया और हिंजिस का चौथा खिताब है। साथ ही यह दोनों का बतौर जोड़ीदार 13वां खिताब है। इन दोनों खिलाड़ियों ने साल की शुरुआत ब्रिस्बेन और सिडनी से शुरु की थी। इसके बाद दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतकर गेंड स्लैम की हैट्रिक लगाई थी।

अपने अंतिम टेस्ट में ब्रेंडन मैकलम ने टेस्ट

इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा

- न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज और कप्तान ब्रेंडन मैकलम (Brendon McCullum) ने अपने अंतिम टेस्ट को यादगार बना दिया है। अपने 101वें टेस्ट में मैकलम ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा दिया। मैकलम ने ये कारनामा 54 गेंदों में किया। उन्होंने विवियन रिचर्ड्स और मिस्बाह-उल-हक का 56 गेंद में शतक का रिकॉर्ड तोड़ा।

आईसीसी और बीसीसीआई ने संयुक्त रूप से टीम स्वच्छ क्लिनिक का शुभारम्भ किया

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 15 फरवरी 2016 को बीसीसीआई के साथ मिलकर टीम स्वच्छ क्लिनिक का शुभारम्भ किया। स्वच्छता क्लिनिक का शुभारम्भ आईसीसी विश्व टी20 की मेजबानी करने वाले शहर से किया गया।
- इसका शुभारम्भ एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से किया गया।
- यह कदम भारत को स्वच्छ बनाने हेतु राष्ट्रव्यापी सामाजिक आंदोलन की पहल के रूप में उठाया गया।
- इसका उद्देश्य स्वच्छता अभियान और भारत में शौचालय का उपयोग करने व खुले में शौच मुक्त भारत के निर्माण को बढ़ावा देना है।

लियोनल मेसी ला लीगा मैचों में 300 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने

- अर्जेन्टीना के फुटबालर लियोनल मेसी ने स्पेन स्थित ला लीगा मैच में 18 फरवरी 2016 को स्पोर्टिंग गिजोन के खिलाफ मुकाबले में दो गोल के साथ जीत दर्ज की तथा इस मैच में मेसी ने लीगा का अपना 300वां गोल भी किया।
- मेसी का यह 334वां ला लीगा मैच है और उनके कुल 301 गोल हो गए हैं।

- मेसी विश्व की किसी भी एक लीग में 300 गोल दागने वाले पांचवें खिलाड़ी बने।
- उनसे पहले विभिन्न लीगों में जिमी ग्रेक्स, गर्ड मूलर, डिकसी डीन और स्टीव ब्लूमर यह रिकॉर्ड बना चुके हैं।

पंजाब वॉरियर्स ने हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता

- हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2016 के फाइनल मुकाबले में 21 फरवरी 2016 को जेपी पंजाब वॉरियर्स ने कलिंगा लांसर्स को 6-1 से हराकर खिताब जीता। पंजाब ने लगातार दो बार फाइनल में हारने के बाद पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
- रांची स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए लीग के चौथे संस्करण के खिताबी मुकाबले में अरमान कुरैशी, मैट गोड्स और सतबीर सिंह ने पंजाब वॉरियर्स के लिए गोल किए।
- वर्ष 2016 के दौरान लीग में प्रत्येक फील्ड गोल के लिए दो गोल दिए गए जबकि पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने वाली टीमों को एक गोल मिला।

ICC Test Ranking : ऑस्ट्रेलिया फिर शीर्ष पर, भारत नंबर 2 पर

- न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सात विकेट से जीत

दर्ज कर ना सिर्फ दो मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर ली, बल्कि विश्व टेस्ट रैंडक्षकग में अपना शीर्ष स्थान भी वापिस हासिल कर लिया।

- यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए यादगार रहा तो न्यूजीलैंड हारने के बावजूद इसे कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यह उसके दिग्गज क्रिकेटर और कप्तान ब्रैंडन मैकुलम का 101वां और अंतरराष्ट्रीय करियर का भी आखिरी मैच रहा, जिसके साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का भी अंत हो गया।

ब्रैंडन मैकुलम ने रचा इतिहास, ठोका टेस्ट

क्रिकेट का सबसे तेज शतक

- यूजीलैंड के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 54 गेंद में शतक जड़ा जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है।
- पिछला रिकार्ड 56 गेंद पर शतक का था जो वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवरिचर्डस ने इंग्लैंड के खिलाफ 30 साल पहले बनाया था जबकि पाकिस्तान के मिसबाह उल हक ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही इस रिकार्ड की बराबरी की थी।
- संन्यास ले रहे मैकुलम के करियर का यह अंतिम टेस्ट है। वह उस समय बल्लेबाजी

करने उतरे जब न्यूजीलैंड की टीम 32 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी। मैकुलम ने जब अपना रिकार्ड शतक पूरा किया तब टीम का स्कोर चार विकेट पर 175 रन था।

दक्षिण एशियाई खेल: भारतीय पहलवानों को 14

गोल्ड

- भारतीय पहलवानों ने आज यहां 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की कुश्ती स्पर्धा में दांव पर लगे कुल 16 में से 14 स्वर्ण पदक जीतकर इस स्पर्धा में अभियान शानदार तरीके से समाप्त किया।

www.BankExamsToday.com

- भारत की यह द्योयम दर्जे की टीम थी, लेकिन घरेलू पहलवान अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के सामने काफी मजबूत साबित हुए, उन्होंने आज दांव पर लगे छह में से पांच स्वर्ण और एक रजत पदक अपनी झोली में डाले।
- भारतीय पहलवानों ने इस तरह अपने अभियान का अंत 14 स्वर्ण और दो रजत पदक से किया। भारत ने आठ महिला वर्गों के सभी स्वर्ण अपनी झोली में डाले जबकि पुरुष पहलवानों ने छह स्वर्ण और दो रजत जीते। पाकिस्तान ने दो स्वर्ण पदक जुटाए।

चिनप्पा ने पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी को हराकर

स्वर्ण पदक जीता

- स्टार खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने सोमवार को 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की महिला एकल स्क्वॉश के तनाव पूर्ण फाइनल में पाकिस्तान की मारिया तूरपाकी वजीर को हराकर पुरुष स्पर्धा में मिली भारत की निराशा की भरपाई की।
- शीर्ष वरीय और वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज चिनप्पा ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आर जी बरुआ स्पोर्ट्स परिसर में दूसरी वरीय वजीर को 10 -12, 11-7, 11-9, 11-7 से शिकस्त दी।

लाहिड़ी ने हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता

- भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी को ऑनलाइन पोल में वोटिंग के बाद प्रशंसकों ने हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर चुना।
- लाहिड़ी ने वर्ष 2015 में यादगार प्रदर्शन किया और दुनिया के उभरते हुए युवा स्टार खिलाड़ियों में शामिल रहे।
- उन्होंने थाईलैण्ड के थॉगचाई जैदी, मलेशिया के डैनी व फिलिपिंस के मिगुएल को पीछे छोड़कर अवार्ड जीता।

बीसीसीआई ने पाक अंपायर असद रउफ पर पांच साल बैन लगाया

- बीसीसीआई ने पाकिस्तान के अंपायर असद रउफ पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। असद रउफ पर गलत आचरण और भ्रष्टाचार में लिप्तता का आरोप सही पाने के बाद बीसीसीआई ने उन पर यह प्रतिबंध लगाया है।
- बीसीसीआई ने रउफ पर पांच साल के लिए क्रिकेट के किसी भी फॉर्म में कहीं भी पांच साल तक के लिए अंपायरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में हुई बैठक में रउफ पर इस प्रतिबंध को लगाने का फैसला लिया गया। 15 जनवरी को बोर्ड ने रउफ से कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए।
- रउफ पर आईपीएल के दौरान गलत गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा था। उन पर सटोरियों से महंगे तोहफे लेने का आरोप था। यही नहीं रउफ पर 2013 आईपीएल के दौरान कुछ मैचों में सट्टेबाजी का भी आरोप लगा था।

कविता ने मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक के लिये क्वालिफाई किया

- भारत की लंबी दूरी की धाविका कविता राउत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की महिला मैराथन का स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया

जिससे भारत ने शुक्रवार को यहां एथलेटिक्स में अपने अभियान का शानदार अंत किया।

- कविता ने दो घंटे 38 मिनट और 38 सेकेंड के समय के साथ मैराथन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और रियो ओलंपिक की महिला मैराथन स्पर्धा के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी भारतीय धाविका बनी। रियो खेलों के लिए महिला मैराथन का क्वालीफाई गस्तर दो घंटे और 42 मिनट है।
- नासिक की कविता सैग खेलों के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं।
- शुक्रवार के दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ भारत ने एथलेटिक्स स्पर्धा का अंत 28 स्वर्ण, 22 रजत और नौ कांस्य पदक के साथ किया।

लियोनल मैसी को जनवरी महीने के लिए ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया

बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मैसी को जनवरी महीने के लिए ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।

- 2013 में इस अवॉर्ड के विजेता और 6 बार के बैलन डी'ओर लियोनल मैसी ने जनवरी में बार्सिलोना की ओर से ला लीगा में 6 गोल किए थे।

- मैसी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार बैलन डी'ओर तथा तीन लगातार यूरोपियन गोल्डन शू जीता है।

भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया

- सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे मैच में भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों भले ही हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन इस हार के बाद भी टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है।
- सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाज करते हुए निर्धारित 20 ओवरो में 5 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिस पैरी ने शानदार 55 रनों की नाबाद पारी खेली।
- इससे पहले भारत ने एडिलेड ओवल और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ये पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही सीरीज जीती है।

नोवाक जोकोविच ने छठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता

- सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने छठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मर्रे को 6-1, 7-5, 7-6 से हराकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम कर लिया।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज़ जीती

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में 31 जनवरी 2016 को खेले गये टी-20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। इस प्रकार भारत ने 3-0 से सीरीज जीती।
- 140 साल के क्रिकेट इतिहास में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को कभी भी उसके घरेलू मैदान में किसी टीम ने 3 या इससे अधिक मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं किया था।
- तीन मैचों की सीरीज में 199 रन बनाने वाले विराट कोहली को 'मैन ऑफ द सीरीज', वहीं शेन वॉटसन को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।
- इस जीत से भारत की टीम टी-20 रैंकिंग में भी पहले स्थान पर आ गयी है, इससे पहले आठवें नंबर पर थी।

पहला अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट अग्रतला में सम्पन्न

- पहला अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट अग्रतला में सम्पन्न हो गया है।
- इस पांच दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन ऑल त्रिपुरा पेरेंट्स चैस फोरम ने खेजुरबागन स्थित शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टल में किया था।
- यह इस राज्य का पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट था इसमें पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम, मिजोरम, दिल्ली और पंजाब जैसे विभिन्न अन्य राज्यों से लगभग 139 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

सौम्या अग्रवाल ने रोप स्कीपिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में दर्ज

- मध्य प्रदेश में उज्जैन की सौम्या अग्रवाल ने स्कीपिंग रोप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने नीदरलैंड की महिला खिलाड़ी यादरा वोल्ड्रे को पीछे छोड़कर एक मिनट में 160 जम्प लगाकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है।
- गोल्डन बुक से आए अधिकारी के सामने सौम्या ने यह रिकॉर्ड कायम किया है।
- सौम्या अग्रवाल ने अंडर 14 के जम्प रोप में एक मिनट में 160 जम्प लगाकर नीदरलैंड की यादरा वोल्ड्रे के एक मिनट

में 158 का वर्ल्ड रिकार्ड तोडा। सौम्या ने एक मिनट में हाईएस्ट जम्प कर इतिहास रच दिया।

पुरस्कार

गीतू ने जीता ग्लोबल फिल्ममेकिंग अवार्ड

- अभिनेत्री गीतू मोहनदास ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2016 में ग्लोबल फिल्ममेकिंग पुरस्कार जीता है।
- गीतू को उनके आगामी फिल्म 'इंशा अल्लाह' के लिए पुरस्कृत किया गया। उनके अलावा यह पुरस्कार क्यूबा के फिल्म निर्माता अरमांडो कापो अब्द, इटली के फिल्म निर्माता एंटोनियो पियाजा, फेबियो ग्रैसाडोनिया और मोरक्को के एब्देलाह टाया को भी दिया गया।
- गीतू की फिल्म 'इंशा अल्लाह' लक्षद्वीप के एक युवा लड़के की कहानी है, जो अपने बड़े भाई को खोजने के दौरान कई अनुभवों से गुजरता है।

पंडित रामनारायण को भीमसेन जोशी जीवन

गौरव पुरस्कार

- राज्य शासन की तरफ से दिया जाने वाला पंडित भीमसेन जोशी जीवन गौरव

पुरस्कार इस साल जाने-माने सारंगी वादक पंडित रामनारायण को दिया जाएगा। इस बात की घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावड़े ने दी।

- हर साल राज्य शासन की तरफ से शास्त्रीय गायन और वादन के क्षेत्र में लंबे समय तक उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकारों को भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
- इस पुरस्कार में पांच लाख रुपए नकद, मानपत्र, सम्मानचिन्ह प्रदान किया जाता है।
- हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल सारंगी वादन की कला का विकास करने वाले 88 वर्षीय पंडित रामनारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारंगी वादन के क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं।

यस बैंक ने ग्रीन बांड पायनियर पुरस्कार जीता

भारत में निजी क्षेत्र की पांचवीं सबसे बड़ी बैंक, यस बैंक को भारत के उभरते बाजारों में अग्रणी होने के कारण लंदन स्टॉक एक्सचेंज, (एलएसई) लंदन में एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित ग्रीन बाँड पायनियर पुरस्कार दिया गया है।

- यस बैंक ऑफ इंडिया को निर्गमन में उच्च स्तर पर एवर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड की अत्यधिक सफलता हेतु ग्रीन बांड बाजार में अग्रणी प्रयासों के लिए पहली बार मान्यता दी गई है।

- भारतीय बैंकों में केवल यस बैंक को ही इन एवर ग्रीन बॉण्ड पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक को प्रधानमंत्री जनधन योजना हेतु सर्वोच्च बैंक का पुरस्कार

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के सबसे सफल कार्यान्वयन लिए भारत की प्रमुख सार्वजनिक बैंक 'पंजाब नेशनल बैंक' (पीएनबी) को फरवरी 2016 के प्रथम सप्ताह में सर्वोत्तम बैंक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
- पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को बड़े बैंकों में सीएसआर व कारोबार दायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा एमएसएमई बैंक के लिए रनरअप बैंक चुना गया।

नाना पाटेकर को मिलेगा 'गोदावरी गौरव' अवार्ड

- फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर को 'कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान' द्वारा स्थापित 'गोदावरी गौरव पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
- उनके अलावा नृतक कनक रेले, डॉ. शशि कुमार चित्रे, डॉ. बालकृष्ण जोशी आदि को भी अवार्ड दिया जायेगा।

- पुरस्कार में 21000 रुपये व स्मृति चिन्ह शामिल है। यह मराठी लेखक मधू मंगेश कार्णिक द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

69वें बाफ्टा अवार्ड्स में 'द रेवेनेन्ट' की धूम, लियोनार्डो को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब

- 69वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स (बाफ्टा) में 'द रेवेनेन्ट' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड्स से नवाजा गया। वहीं साल की एक और बेहतरीन फिल्म मैड मैक्स: फ्यूरी रोड टू विन ने चार श्रेणियों में अवार्ड जीते।
- ऑस्कर के बाद सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बाफ्टा में 'द रेवेनेन्ट' ने बेस्ट फिल्म के साथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित पांच अवार्ड्स जीते। 'द रेवेनेन्ट' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए 'लियोनार्डो डिकाप्रियो' ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मेक्सिको के 'अलजेन्द्रो गोंजालेज इनारितु' को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के खिताब से नवाजा गया।
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म की रेस में द रेवेनेन्ट ने कैरोल, ब्रिज ऑफस्पीस, स्पॉटलाइट, और द बिग शॉर्ट जैसी फिल्मों को पछाड़ा। इन अवार्ड्स के अलावा 'ब्री लार्सन' ने फिल्म रुम में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 'केट विंसलेट' ने फिल्म 'स्टीव जॉब्स' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक

अभिनेत्री का अवार्ड जीता। 'मार्क रेलॉस' को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब मिला उन्हें यह अवार्ड 'ब्रिज आफ स्पीस' के लिए दिया गया। 'स्पॉटलाइट' को मूल पटकथा और 'द बिग शॉर्ट' को सर्वश्रेष्ठ रुपांतरित पटकथा का अवार्ड दिया गया।

**राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्फोसिस पुरस्कार-
2015 प्रदान किये**

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने छह विजेताओं को इन्फोसिस पुरस्कार 2015 प्रदान किये हैं।
- पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता हैं, प्रोफेसर उमेश वाघमरे, प्रोफेसर जोनार्डन गनेरी, डॉ अमित शर्मा, प्रोफेसर महन एमजे, प्रोफेसर रविन्द्र कुमार एवं डॉ श्रीनाथ राघवन।
- छह श्रेणियां हैं - इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान।

रॉबिन दुनिया की 10 बेस्ट टीचर्स में शुमार

- रॉबिन एक टीचर हैं और मुंबई के रेड लाइट एरिया में बच्चियों को पढ़ाने का काम करती हैं। यह उनका काम है लेकिन इसके लिए न तो उन्हें कोई वेतन मिलता है और न ही कोई आर्थिक मदद। वह

अपनी स्टूडेंट्स को क्रांतिकारी कहकर बुलाती हैं।

- इस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने वालों में यूके, यूएस, नैरोबी, फिलस्तीन, जापान, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टीचर्स भी हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2016 के तहत खिताब जीतने वाले टीचर को एक मिलियन डॉलर की धनराशि इनाम के रूप में दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि रॉबिन की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। इन शीर्ष 10 नामों का चुनाव 148 देशों के आठ हजार नॉमिनेशन्स में से किया गया है। बता दें कि 13 मार्च को दुबई में एक समारोह के दौरान विजेता टीचर के नाम की घोषणा की जाएगी।

**वर्ष 2014 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की
घोषणा**

- भारत सरकार ने वर्ष 2014 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की है।
- ये पुरस्कार केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागीय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं 500 या इससे अधिक कर्मियों की निजी क्षेत्र की ईकाइयों में काम करने वाले 54 कर्मियों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार की

योग्यताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा साहस और सजगता के लिए प्रदान किया जाएगा।

- इस वर्ष के नामांकनों में से श्रम भूषण पुरस्कार के लिए 9, श्रम वीर /श्रम वीरांगना के लिए 19 और श्रमश्री /श्रम देवी के लिए 26 नामों का चयन किया गया है। हालांकि श्रम पुरस्कारों की कुल संख्या 32 है, लेकिन पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या 54 (3 महिलाओं सहित) है, क्योंकि कुछ पुरस्कार एक से अधिक कर्मियों/ या कर्मियों के दल को दिए गए हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 36 और निजी क्षेत्र के 18 कर्मियों शामिल हैं।

अर्नेस्ट एंड यंग आंत्रप्रिन्योर अवार्ड 2015

- लुपिन लिमिटेड की सीईओ विनिता गुप्ता व प्रबंध निदेशक नीलेश गुप्ता को 2015 के लिये अर्नेस्ट एंड यंग आंत्रप्रिन्योर अवार्ड दिया गया है।
- आदि गोदरेज की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय जूरी ने विजेताओं का चुनाव किया।
- टीसीएस के पूर्व उपाध्यक्ष एफसी कोहली को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।

विद्या बालन को प्राइड ऑफ केरल अवॉर्ड

- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को प्राइड ऑफ केरल

अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
विद्या केरल से ही हैं।

- यह सम्मान प्राप्त करने वाली 'कहानी' की अभिनेत्री 'परिणीता', 'द डर्टी पिक्चर', 'नो वन किल्डजेसिका' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्हें गैर-सांप्रदायिक, गैर राजनीतिक संगठन विश्व समुदाय मलयाली परिषद और कैराली टीवी द्वारा सम्मानित किया गया।

निधन

चांद पर चहलकदमी करने वाले छठे अंतरिक्ष

यात्री मिशेल का निधन

- चांद पर चहलकदमी करने वाले छठे अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल का निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे।
- मिशेल का फ्लोरिडा के वेस्ट पॉम बीच में गुरुवार को निधन हो गया। वह 1971 में 'अपोलो 14 अभियान के दौरान चांद पर चहलकदमी करने वाले पायलट थे।
- अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर मिशेल अपोलो 14 के कमांडर एलन शेपहार्ड के साथ गए थे, जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी नागरिक थे।

कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का निधन

- भारत के जाने-माने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का निधन हो गया है। वे 55 वर्ष के थे।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।
- उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मैं ईश्वर से सुधीर तैलंग की आत्मा को शांति और परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ।

उर्दू लेखक इंतज़ार हुसैन का निधन

- उर्दू कथा लेखक, उपन्यासकार, कवि और स्तंभकार इंतज़ार हुसैन का 2 फरवरी 2016 को पाकिस्तान के लाहौर में निधन हो गया है। वह 93 वर्ष के थे।
- वह पहले पाकिस्तानी और उर्दू लेखक जिसे प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ नहीं रहे

- पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़ नहीं रहे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि वे बेहद लोकप्रिय नेता थे।
- बलराम जाखड़ ने 22 जनवरी 1980 से 18 दिसम्बर 1989 तक लोकसभा अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला।

- बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के गर्वनर भी रहे। उन्होंने गवर्नर के रूप में 30 जून, 2004 से 30 मई 2009 तक अपनी सेवाएं दी। वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री थे।

गायक-गीतकार डेन हिक्स का निधन

- गायक-गीतकार डेन हिक्स का कैलिफोर्निया की मील घाटी में दो साल तक गले और लीवर के कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे।
- हिक्स एकाॅस्टिक बैंड डेन हिक्स और हिज हॉट लिक्स के लिए जाने जाते रहे हैं।
- वह अपने समय में भले ही अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनके साथी संगीतकार उनका बहुत सम्मान करते थे।
- 'वेयर्स द मनी?', 'स्ट्राइकिंग इट रिच' और 'लास्ट ट्रेन टू हिक्सविले' सहित वह कई सफल एल्बम के लिए संगीत रिकॉर्ड कर चुके हैं।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन

- नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। उनका निधन काठमांडू के महाराजगंज स्थित आवास पर रात करीब 1 बजे हुआ।

- डॉक्टरों के मुताबिक कोइराला काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वह निमोनिया से पीड़ित थे और इसका इलाज भी चल रहा था।
- नेपाली कांग्रेस के सदस्य सुशील कोइराला को फरवरी 2014 में देश का प्रधानमंत्री चुना गया था। वे नेपाली कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष भी थे।

उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का मुंबई में निधन

- उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का निधन हो गया है। वह 78 वर्ष के थे। निदाफाजली का असली नाम मुक्तदा हसन था।
- वह 2013 में पद्म श्री सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिसमें जिगर मुरादाबादी: मोहब्बत का सायरा काफी मशहूर रहीं।

ताजिकिस्तान में भारत के राजदूत का निधन

- ताजिकिस्तान में भारत के राजदूत बिरज प्रसाद का शनिवार सुबह निधन हो गया।
- राजदूत बीराजा प्रसाद ओडिशा के वर्ष 1998 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। बीराजा प्रसाद किसी भी देश में भारतीय राजदूत के रूप में

नियुक्त किए सबसे कम उम्र के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) थे। उन्होंने भारतीय दूतावास के मिशन में उप प्रमुख के रूप में मैट्रिड में भी काम किया।

- मंत्रालय में प्रसाद ने रूस, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित कार्यों को संभाला।

संगीत निर्देशक राजामणी का निधन

- दक्षिण भारतीय संगीत निर्देशक राजामणी का निधन हो गया है।
- वह 60 वर्ष के थे तथा लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
- उन्होंने करीब 70 मलयालमी फिल्मों में संगीत दिया था।

पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली का निधन

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तौर पर एकमात्र कार्यकाल के लिए सेवा देने वाले पूर्व महासचिव बुतरस घाली का 93 साल की आयु में निधन हो गया।
- मिस्र के जाने-माने राजनयिक रहे घाली ने इस्राइल के साथ देश की महत्वपूर्ण शांति वार्ता में मदद की थी, लेकिन बाद में इस मुद्दे पर अमेरिका से टकराव हो गया।
- मिस्र के एक प्रमुख इसाई राजनीतिक परिवार के वंशज बुतरस घाली अफ्रीकी

महाद्वीप से पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बने थे।

वरिष्ठ गायक उस्ताद अब्दुल राशिद खान का

निधन

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अब्दुल राशिद खान का 18 फरवरी 2016 को कोलकाता में निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे।

- वर्ष 1908 में उत्तर प्रदेश में जन्में खान ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। वे आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी, कोलकाता में रह रहे थे।
- खान द्वारा गाए गये गीतों की बीबीसी एवं इराक रेडियो द्वारा रिकॉर्डिंग की जा चुकी है, बहुत सी अन्य संस्थाओं जैसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ एवं संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता में भी उनके गीतों को सहेज कर रखा गया है।
- वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

पुलित्जर पुरस्कार विजेता हार्पर ली का निधन

- 1960 में लिखे गए उपन्यास 'टू किल ए मॉकिंगबर्ड' के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका हार्पर ली का निधन हो गया। उन्होंने अमेरिका के अलबामा

राज्य स्थित अपने गृह नगर मनरोविले में आखिरी सांस ली।

- हार्पर अपने 'टू किल ए मॉकिंगबर्ड' उपन्यास की वजह से दुनिया भर में जानी गईं और इन उपन्यास को दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाया जाता है। यह उपन्यास रंग भेद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था।

मशहूर इतालवी लेखक अम्बेर्टो इको का 84 साल

की उम्र में निधन

- इतालवी लेखक अम्बेर्टो इको का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। 'द नेम ऑफ द रोज' सहित कई सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यासों के लेखक इको कैंसर से पीड़ित थे।
- वर्ष 1980 में उनका उपन्यास 'द नेम ऑफ द रोज' उन्हें अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दे गया। इस उपन्यास की लाखों प्रतियां बिकीं। वर्ष 1986 में इस उपन्यास पर फिल्म भी बनाई गई।

प्रसिद्ध निर्देशक अरबिन्दो मुखर्जी का निधन

- प्रसिद्ध निर्देशक अरबिन्दो मुखर्जी का कोलकाता में निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे।

- वे बंगाली सुपर सितारे उत्तम कुमार के साथ 'मोचक' 'अग्नीश्वर', 'निशिपद्मा' जैसी फिल्मों में निर्देशित कर चुके थे।

को स्थानीय समयानुसार रात नौ बज कर 30 मिनट पर अंतिम सांस ली।

लांसनायक हनुमंथप्पा का निधन

- सियाचिन में मौत को मात देकर लौटे हनुमंथप्पा आखिर जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हनुमंथप्पा का निधन हो गया। हनुमंथप्पा ने सुबह 11.45 बजे आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में अंतिम सांस ली। हनुमंथप्पा 6 दिन तक बर्फ में दबे रहे थे जबकि उनके बाकी 9 साथियों को बचाया नहीं जा सका था।
- उनके दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया का संक्रमण था। शरीर के कई अंग अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तमाम कोशिशों और दवाओं के बावजूद हनुमंथप्पा अलविदा कह गए। सियाचिन में 35 फीट बर्फ में 6 दिन तक दबे रहने के बाद सोमवार को लांसनायक हनुमंथप्पा को निकाला गया था।

इतालवी लेखक अम्बेर्टो इको का निधन

- इतालवी लेखक अम्बेर्टो इको का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। 'द नेम ऑफ द रोज' सहित कई सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यासों के लेखक इको कैंसर से पीड़ित थे। इतालवी अखबार ला रिपब्लिका ने उनके परिवार वालों के हवाले से अपनी वेबसाइट में बताया कि इको ने शुक्रवार

पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेस्ली बासेट का निधन

- पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेस्ली बासेट का जॉर्जिया में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे।
- उन्होंने अमेरिकी तथा यूरोपीय आर्मी में भी काम किया था।
- उन्होंने वेरियेसंस ऑफ आर्केस्ट्रा के लिये 1966 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था।

नहीं रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ओ.एन.वी.

कुरूप

- ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात मलयालम कवि, गीतकार और पर्यावरण विद ओ एन वी कुरूप का शनिवार को यहां दिल का दौरा पड़ने से एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 84 साल के थे।
- मलयालम साहित्य में अपने बहुमूल्य योगदान के अलावा वह मलयालम फिल्म उद्योग और रंगमंच से जुड़े थे। वह केरल पीपुल्स आर्ट्स क्लब के कई नाटकों का हिस्सा रहे थे।

- अनूप अशोक सरदेसाई लिखित पुस्तक 'नाथूराम गोडसे: द स्टोरी ऑफ एन एसेसिन' 30 जनवरी को रिलीज हो गई।
- इसमें नाथूराम गोडसे के जीवन तथा गांधीजी की हत्या के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

**सचिन की आत्मकथा 'प्लेइंग इट माई वे' ने
बनाया रिकॉर्ड**

- मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे ने नया कीर्तिमान हासिल कर लिया। उनकी आत्मकथा ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की कथा और गैर कथा कैटेगिरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का रिकॉर्ड बनाया है।
- सचिन की आत्मकथा को छह नवंबर 2014 को हैचेट इंडिया ने प्रकाशित किया था। तब से लेकर अब तक इस पुस्तक की 1,50,289 प्रतियां बिक चुकी हैं। पुस्तक की कीमत 899 रुपए रखी गई थी और अब तक इसने 13.51 करोड़ रुपए की कमाई की।
- उनकी आत्मकथा ने कथा आधारित और गैर कथा आधारित वर्ग के वयस्क वर्ग के पेपर बैक में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। इसके अलावा किताब के पहले दिन के ऑर्डर ही प्री ऑर्डर और लाइफटाइम सेल्स दोनों में सबसे आगे है।

पुस्तकें

'नाथूराम गोडसे: द स्टोरी ऑफ एन एसेसिन'

रिलीज

- बोरिया मजूमदार उनकी इस आत्मकथा के सह लेखक है।

www.BankExamsToday.com